

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी 2020—माघ 18, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2020

क्र. ई.-5-1015-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती संस्कृति जैन, भाप्रसे., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जून 2019 द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2019 से 21 जनवरी 2020 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में, अब, उन्हें दिनांक 22 जनवरी से 25 अप्रैल 2020 तक, पिन्वांवे दिन का चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती संस्कृति जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती संस्कृति जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती संस्कृति जैन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2020

क्र. ई.-1-445-2019-5-एक.—असम सरकार की अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 2019 द्वारा श्री प्रतीक हजेला, भाप्रसे (ए.एम. 1995) को दिनांक 1 जनवरी 2020 से प्रमुख सचिव वेतनमान रुपये

1,82,200—2,24,100/- (पे मेट्रिक्स 15) में पदोन्नत कर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की गई है जिसकी प्रभावशीलता दिनांक 1 जनवरी 2020 से होने का लेख है।

(2) उपरोक्त के अनुक्रम में श्री प्रतीक हजेला आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ.-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(3) राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत वि.क.अ.-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2020

क्र. ई.-5-776-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. चन्द्रशेखर, भाप्रसे., सचिव, मुख्यमंत्री तथा कार्यपालक संचालक, लोक सेवा प्रबंधन एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन को दिनांक 20 से 23 जनवरी 2020 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. चन्द्रशेखर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मुख्यमंत्री तथा कार्यपालक संचालक, लोक सेवा प्रबंधन एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बी. चन्द्रशेखर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. चन्द्रशेखर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2020

क्र. ई.-5-630-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज मंडलोई, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम को दिनांक 10 से 12 फरवरी 2020 तक, तीन दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08, 09 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री नीरज मंडलोई की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, खनिज साधन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम का प्रभार श्री शिव शेखर शुक्ला, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश

शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज मंडलोई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नीरज मंडलोई द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिव शेखर शुक्ला, भाप्रसे., सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नीरज मंडलोई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज मंडलोई, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-772-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. नरहरि, आयएस., आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश को दिनांक 31 जनवरी से 5 फरवरी 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पी. नरहरि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. नरहरि, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-876-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तेजस्वी एस. नायक, आयएस., कलेक्टर, जिला बैतूल को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 18, 19 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री तेजस्वी एस नायक की अवकाश अवधि में श्री साकेत मालवीय, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला बैतूल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला बैतूल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तेजस्वी एस. नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री तेजस्वी एस नायक द्वारा कलेक्टर, जिला बैतूल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री साकेत मालवीय, भाप्रसे उक्त के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाश काल में श्री तेजस्वी एस. नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तेजस्वी एस. नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-877-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित तोमर, आयएस., कलेक्टर, जिला बड़वानी को दिनांक 10 से 16 जनवरी 2020 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अमित तोमर की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला बड़वानी का प्रभार श्री मनोज कुमार सरयाम, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बड़वानी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोमर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अमित तोमर, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला बड़वानी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज कुमार सरयाम, राप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अमित तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोमर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-988-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उमा माहेश्वरी आर., आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 01 जनवरी से 28 जून 2020 तक, एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

Bhopal, the 22nd January 2020

No. E-1-286-2019-5-I.—The Appointments Committee of the Cabinet (ACC) *Vide* letter dated 6th December 2019 and Ministry of Coal *Vide* letter dated 9th December 2019 has approved the appointment of Shri Pramod Agrawal IAS (MP: 1991), Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Technical Education, Skill Development and Employment Department as Chairman-cum-Managing Director, Coal India Ltd. on immediate absorption basis in the scale of pay of Rupees 2,00,000-3,70,000/- (revised) with effect from the date of his assumption of charge of the post on or after 1st February 2020 till the date of his superannuation, i.e. 30th June 2023, or until further orders, whichever is earlier.

(2) In pursuance of the above, Shri Pramod Agrawal, Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Technical Education, Skill Development and Employment Department is relieved from Madhya Pradesh on 31st January 2020 and shall be deemed to have retired from Indian Administrative Service under Rule 5A of the All India Services (Death-Cum-Retirement Benefits) with effect from 31st January 2020, in view of his appointment as Chairman-cum-Managing Director, Coal India Ltd. on permanent absorption basis.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधिर रंजन मोहंती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2020

क्र. ई.-5-1088-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती प्रीति जैन, आयएस., संभागीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर को दिनांक 21 से 28 जनवरी 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रीति जैन, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संभागीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रीति जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रीति जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2020

क्र. ई-5-985-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री तन्वी हुड्डा, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला को दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2019 एवं 5 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में सुश्री तन्वी हुड्डा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री तन्वी हुड्डा, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2020

क्र. ई-5-959-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री फ्रेंक नोबल ए., आयएस., प्रबंध संचालक, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 1 से 15 जनवरी 2020 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री फ्रेंक नोबल ए. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री फ्रेंक नोबल ए. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फ्रेंक नोबल ए. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1065-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दिनेश श्रीवास्तव, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 नवम्बर 2019 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक, सात दिन

का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में, अब, उन्हें दिनांक 2 से 3 जनवरी 2020 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री दिनेश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिनेश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-1085-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री चन्द्रमौलि शुक्ला, भाप्रसे, उपसचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा विकअ विशेष परियोजनाएं को दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमौलि शुक्ला, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमौलि शुक्ला, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2020

क्र. ई.-5-831-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2020

क्र. ई-5-985-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री तन्वी हुड्डा आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला को दिनांक 3 से 22 फरवरी 2020 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 23 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री तन्वी हुड्डा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री तन्वी हुड्डा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री तन्वी हुड्डा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-897-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जे. के. जैन, आयएस., (2002) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2019 द्वारा दिनांक 22 से 30 नवम्बर 2019 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 24 एवं 28 नवम्बर 2019 तक, पांच दिन का संशोधित एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश तथा दिनांक 22, 23 एवं 29, 30 नवम्बर 2019 कुल, चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-1056-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 3 से 10 जनवरी 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 6 से 9 जनवरी 2020 तक, चार दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-1083-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह, विभाग को दिनांक 27 जनवरी से 24 मार्च 2020 तक, अट्ठावन दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, उपसचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2020

क्र. ई-5-863-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे (2008) संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को दिनांक 24 जनवरी से 7 फरवरी 2020 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कृष्ण गोपाल तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीप्ति गौड़ मुकजी, प्रमुख सचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2020

क्र. ई-5-896-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेन्द्र सिंह, आयएस., सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 नवम्बर 2019 द्वारा दिनांक 20 से 31 दिसम्बर 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक, नौ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 22 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 30 नवम्बर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2020

क्र. एफ 5-01-2017-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, माननीय न्यायाधिपति श्रीमती अंजुली पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 31 अक्टूबर 2019 से 2 नवम्बर 2019 तक.	तीन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2020

क्र. एफ 5-03-2019-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, माननीय न्यायाधिपति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 27 सितम्बर 2019 से 4 अक्टूबर 2019 तक.	आठ	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2020

क्र. एफ 5-01-2020-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, माननीय न्यायाधिपति श्रीमती नन्दिता दुबे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 10 दिसम्बर 2019 से 19 दिसम्बर 2019 तक.	दस	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

क्र. एफ 5-02-2020-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, माननीय न्यायाधिपति श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 5 नवम्बर 2019 का दिनांक 11 नवम्बर 2019 का तथा 23 नवम्बर 2019 से 25 नवम्बर 2019 तक.	पांच	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

क्र. एफ 5-03-2020-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद फहीम अनवर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 18 नवम्बर 2019 से 19 नवम्बर 2019 तक.	दो	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

क्र. एफ 5-07-2020-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, माननीय न्यायाधिपति श्री बी. के. श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 11 नवम्बर 2019 तक.	एक	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 09 एवं 10 नवम्बर 2019 तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

क्र. 107-3029-2019-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, माननीय न्यायाधिपति श्री बी. के. श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निर्मांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

क्र. 126-2673-2019-एक-10.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. के. गुप्ता, लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 23 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2019 तक, कुल दस दिवस के उपभोग किये गये अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 09 दिसम्बर 2019 से 10 दिसम्बर 2019 तक.	दो	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 07 एवं 08 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2020

F. No. 17(E) 2-2020-XXI-B(one)-65-2020.—In exercise of the powers conferred by Section 8(1) of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (21 of 2019) the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby designate the Court specified in column No. (2) of the said schedule (3) thereof, as Designated Court specified in column No. (4) of the said schedule to exercise jurisdiction & to try case or cases under the aforesaid Act in respect of the matter to which the provisions of this Act shall apply & the other matters linked thereto:—

SCHEDULE

S. No.	Designated Court	Area	Designated Court
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IInd Additional District & Sessions Judge, Alirazpur.	Local limits of Civil District Alirazpur.	Designated Court Alirazpur
2	IInd Additional District & Sessions Judge, Anoopur	Local limits of Civil District Anoopur.	Designated Court Anoopur
3	IInd Additional District & Sessions Judge, Ashoknagar.	Local limits of Civil District Ashoknagar.	Designated Court Ashoknagar
4	IInd Additional District & Sessions Judge, Balaghat.	Local limits of Civil District Balaghat.	Designated Court Balaghat
5	IInd Additional District & Sessions Judge, Barwani.	Local limits of Civil District Barwani.	Designated Court Barwani
6	IInd Additional District & Sessions Judge, Betul.	Local limits of Civil District Betul.	Designated Court Betul
7	IInd Additional District & Sessions Judge, Bhind.	Local limits of Civil District Bhind.	Designated Court Bhind.
8	IInd Additional District & Sessions Judge, Bhopal.	Local limits of Civil District Bhopal.	Designated Court Bhopal

(1)	(2)	(3)	(4)
9	IInd Additional District & Sessions Judge, Burhanpur.	Local limits of Civil District Burhanpur.	Designated Court Burhanpur
10	IInd Additional District & Sessions Judge, Chhatarpur.	Local limits of Civil District Chhatarpur.	Designated Court Chhatarpur
11	IInd Additional District & Sessions Judge, Chhindwara.	Local limits of Civil District Chhindwara.	Designated Court Chhindwara
12	IInd Additional District & Sessions Judge, Damoh.	Local limits of Civil District Damoh.	Designated Court Damoh
13	IInd Additional District & Sessions Judge, Datia.	Local limits of Civil District Datia.	Designated Court Datia
14	IInd Additional District & Sessions Judge, Dawas.	Local limits of Civil District Dawas.	Designated Court Dawas
15	IInd Additional District & Sessions Judge, Dindori.	Local limits of Civil District Dindori.	Designated Court Dindori
16	IInd Additional District & Sessions Judge, Dhar.	Local limits of Civil District Dhar.	Designated Court Dhar
17	IInd Additional District & Sessions Judge, E.N. Khandwa.	Local limits of Civil District E.N. Khandwa.	Designated Court E.N. Khandwa
18	IInd Additional District & Sessions Judge, Guna.	Local limits of Civil District Guna.	Designated Court Guna
19	IInd Additional District & Sessions Judge, Gwalior.	Local limits of Civil District Gwalior.	Designated Court Gwalior
20	IInd Additional District & Sessions Judge, Harda.	Local limits of Civil District Harda.	Designated Court Harda
21	IInd Additional District & Sessions Judge, Hoshangabad.	Local limits of Civil District Hoshangabad.	Designated Court Hoshangabad
22	IInd Additional District & Sessions Judge, Indore.	Local limits of Civil District Indore.	Designated Court Indore
23	IInd Additional District & Sessions Judge, Jabalpur.	Local limits of Civil District Jabalpur.	Designated Court Jabalpur
24	IInd Additional District & Sessions Judge, Jhabua.	Local limits of Civil District Jhabua.	Designated Court Jhabua
25	IInd Additional District & Sessions Judge, Katni.	Local limits of Civil District Katni.	Designated Court Katni
26	IInd Additional District & Sessions Judge, Mandla.	Local limits of Civil District Mandla.	Designated Court Mandla.
27	IInd Additional District & Sessions Judge, Mandsaur.	Local limits of Civil District Mandsaur.	Designated Court Mandsaur

(1)	(2)	(3)	(4)
28	IInd Additional District & Sessions Judge, Morena.	Local limits of Civil District Morena.	Designated Court Morena
29	IInd Additional District & Sessions Judge, Narsinghpur.	Local limits of Civil District Narsinghpur.	Designated Court Narsinghpur
30	IInd Additional District & Sessions Judge, Neemuch.	Local limits of Civil District Neemuch.	Designated Court Neemuch
31	IInd Additional District & Sessions Judge, Panna.	Local limits of Civil District Panna.	Designated Court Panna
32	IInd Additional District & Sessions Judge, Raisen.	Local limits of Civil District Raisen.	Designated Court Raisen
33	IInd Additional District & Sessions Judge, Rajgarh (Bioara).	Local limits of Civil District Rajgarh (Bioara).	Designated Court Rajgarh (Bioara).
34	IInd Additional District & Sessions Judge, Ratlam.	Local limits of Civil District Ratlam.	Designated Court Ratlam
35	IInd Additional District & Sessions Judge, Rewa.	Local limits of Civil District Rewa.	Designated Court Rewa
36	IInd Additional District & Sessions Judge, Sagar.	Local limits of Civil District Sagar.	Designated Court Sagar
37	IInd Additional District & Sessions Judge, Satna.	Local limits of Civil District Satna.	Designated Court Satna
38	IInd Additional District & Sessions Judge, Sehore.	Local limits of Civil District Sehore.	Designated Court Sehore
39	IInd Additional District & Sessions Judge, Seoni.	Local limits of Civil District Seoni.	Designated Court Seoni
40	IInd Additional District & Sessions Judge, Shahdol.	Local limits of Civil District Shahdol.	Designated Court Shahdol
41	IInd Additional District & Sessions Judge, Shajapur.	Local limits of Civil District Shajapur.	Designated Court Shajapur
42	IInd Additional District & Sessions Judge, Sheopur.	Local limits of Civil District Sheopur.	Designated Court Sheopur
43	IInd Additional District & Sessions Judge, Shivpuri.	Local limits of Civil District Shivpuri.	Designated Court Shivpuri
44	IInd Additional District & Sessions Judge, Sidhi.	Local limits of Civil District Sidhi.	Designated Court Sidhi
45	IInd Additional District & Sessions Judge, Singrauli.	Local limits of Civil District Singrauli.	Designated Court Singrauli

(1)	(2)	(3)	(4)
46	IInd Additional District & Sessions Judge, Tikamgarh.	Local limits of Civil District Tikamgarh.	Designated Court Tikamgarh
47	IInd Additional District & Sessions Judge, Ujjain.	Local limits of Civil District Ujjain.	Designated Court Ujjain
48	IInd Additional District & Sessions Judge, Umaria.	Local limits of Civil District Umaria.	Designated Court Umaria
49	IInd Additional District & Sessions Judge, Vidisha.	Local limits of Civil District Vidisha.	Designated Court Vidisha
50	IInd Additional District & Sessions Judge, W.N. Mandleshwar.	Local limits of Civil District W.N. Mandleshwar.	Designated Court W.N. Mandleshwar

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2020

फा. क्र. 401-2020-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री आलोक कुमार, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज), मुरैना का जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद से दिया गया त्याग-पत्र उनके आवेदन दिनांक 2 जनवरी 2020 से स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2020

फा. क्र. 1 (सी) 6392-406-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी 2020 द्वारा श्री दीपक उमाले, अधिवक्ता, बुरहानपुर जिनका (नामांकन क्र. एम.पी./2464/91, दिनांक 15 अक्टूबर 2001) है, की विशेष लोक अभियोजक के पद पर लिपिकीय त्रुटिवंश की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए, उनके स्थान पर श्री दीपक उमाले, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम.पी.-931-95, दिनांक 8 मई 1995) को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,

1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला बुरहानपुर के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री दीपक उमाले, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 12 मार्च 1965 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री दीपक उमाले, अधिवक्ता, बुरहानपुर को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी) एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य व्यय-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)-विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2020

क्र. 93-59-2020-ए-ग्यारह.—बायलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद जिला-होशंगाबाद मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4985 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से एक माह की अवधि के लिए दिनांक 23 जनवरी 2020 से 22 फरवरी 2020 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश

डिण्डौरी, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

क्र. एससी-2019-118.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-2-99-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रमांक 4 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2020 में डिण्डौरी जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं.

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (3)	त्यौहार का नाम (4)
1	1 फरवरी 2020	शनिवार	माँ नर्मदा जयंती
2	11 मार्च 2020	बुधवार	होली का दूसरा दिन
3	16 नवम्बर 2020	सोमवार	दीपावली का दूसरा दिन

2. उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालय तथा बैंकों में लागू नहीं होंगे.

बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 2 जनवरी 2020

क्र. 30-व.लि.-1-2019.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम 3-2-1999-1-4, भोपाल दिनांक 31 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, दीपक आर्य, कलेक्टर, बालाघाट, जिला बालाघाट (म. प्र.) वर्ष 2020 में जिला बालाघाट के लिए निम्नांकित तिथियों का स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक	त्यौहारों का नाम	स्थानीय अवकाश	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मकर संक्रांति	बुधवार	15-1-2020
2	नारबोद	बुधवार	19-8-2020
3	भाई दूज	सोमवार	16-11-2020

उक्त अवकाश कोषालय, उप कोषालयों एवं बैंकों के लिए लागू नहीं होगा.

दीपक आर्य, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 20 जनवरी 2020

क्रमांक-बंधक-2020.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) एवं 13(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, रूचिका चौहान, जिला दण्डाधिकारी, रतलाम बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति, रतलाम/उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, रतलाम ग्रामीण, रतलाम शहर, आलोट, सैलाना एवं जावरा का निम्नानुसार पुनर्गठन करती हूँ. समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा.

बंधक श्रम जिला स्तरीय सतर्कता समिति

धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (ए) अन्तर्गत अध्यक्ष

1. जिला दण्डाधिकारी, रतलाम अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (बी) अन्तर्गत सदस्य

1. श्री जगदीश पाटीदार, ग्राम-निपानिया लीला, जिला रतलाम
2. श्री विरेन्द्र नायमा, ग्राम-उपलाई, जिला रतलाम
3. श्री राकेश सोलंकी, ग्राम-रत्तागिरी, जिला रतलाम

धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (सी) अन्तर्गत सदस्य

1. श्री संजय शर्मा, ग्राम-सरवन, जिला रतलाम
2. श्री नरसिंह डामर, निवासी-बाजना, जिला रतलाम

धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (डी) अन्तर्गत सदस्य
शासन द्वारा मनोनित

1. पुलिस अधीक्षक, जिला रतलाम
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम
3. जिला प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम

धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (ई) अन्तर्गत सदस्य

1. महाप्रबंधक, लीड बैंक, रतलाम

रतलाम जिले के उपखण्ड रतलाम ग्रामीण

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ए) अन्तर्गत अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम ग्रामीण अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (बी) अन्तर्गत सदस्य

1. श्रीमती सविता भंवर, ग्राम-सरवड़, जिला रतलाम
2. श्री गोपाल डामर, ग्राम-कुण्डाल सरवड़, जिला रतलाम
3. श्री थावरलाल पिता कानाजी भूरिया, ग्राम-रेन (मऊ) जिला रतलाम

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (सी) अन्तर्गत सदस्य

1. श्री रामचन्द्र धाकड़, ग्राम-खेतलपुर, जिला रतलाम
2. श्री श्रवण पाटीदार, निवासी-रूपाखेड़ा, जिला रतलाम

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (डी) अन्तर्गत सदस्य
शासन द्वारा मनोनीत

1. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस रतलाम ग्रामीण)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, रतलाम
3. शाखा प्रबंधक, लीड बैंक, रतलाम ग्रामीण

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) अन्तर्गत सदस्य

1. प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक, रतलाम ग्रामीण

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी

1. तहसीलदार, रतलाम ग्रामीण

रतलाम जिले के उपखण्ड रतलाम शहर

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ए) अन्तर्गत अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रतलाम शहर अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (बी) अन्तर्गत सदस्य

1. श्री आशिष डेनियल पिता जोसफ डेनियल, 12, आम्लिया भेरू सैलाना बस स्टैण्ड, रतलाम
2. श्री जगदीश पिता घीसालाल आकोदिया, 60, गांधी नगर रतलाम
3. श्री रवी शर्मा पिता कालूरामजी, 610, सुभाष नगर, रतलाम

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (सी) अन्तर्गत सदस्य

1. श्रीमती बबीता पति श्री संजय नागर, 77, इन्द्रलोक नगर, रतलाम
2. श्री सोहेल पिता कमर काजी, 51, काजी हाउस, रतलाम

**धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (डी) अन्तर्गत सदस्य
शासन द्वारा मनोनीत**

1. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस रतलाम शहर)
2. सहायक आयुक्त, नगर पालिक निगम, रतलाम
3. शाखा प्रबंधक, लीड बैंक, रतलाम शहर

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) अन्तर्गत सदस्य

1. प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक, रतलाम शहर

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी

1. तहसीलदार, रतलाम शहर

रतलाम जिले के उपखण्ड आलोट

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ए) अन्तर्गत अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) आलोट अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (बी) अन्तर्गत सदस्य

1. सुश्री रूकमा डाबी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, आलोट, जिला-रतलाम
2. श्री अशोक मालवीय (एडवोकेट), ग्राम-पाटन, तहसील आलोट, जिला-रतलाम
3. श्री मुन्नालाल पिता बालाराम बलाई, ग्राम-केलुखेड़ा, तहसील ताल, जिला-रतलाम

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (सी) अन्तर्गत सदस्य

1. श्रीमती साधना पति श्री विष्णु गोयल, स्टेशन रोड, आलोट, जिला-रतलाम
2. श्री मकबूल मूल्तानी, विक्रमगढ़, आलोट, जिला-रतलाम

**धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (डी) अन्तर्गत सदस्य
शासन द्वारा मनोनीत**

1. अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस आलोट
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आलोट
3. शाखा प्रबंधक, लीड बैंक, आलोट

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) अन्तर्गत सदस्य

1. प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक, आलोट

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी

1. तहसीलदार, आलोट

रतलाम जिले के उपखण्ड सैलाना

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ए) अन्तर्गत अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सैलाना अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (बी) अन्तर्गत सदस्य

1. श्री रामप्रसाद चन्देल, विनोभा मार्ग, सैलाना, जिला-रतलाम
2. श्री शांतीलाल मईड़ा, ग्राम-अडवानिया, तहसील सैलाना जिला-रतलाम

3. श्री जीनवलाल मईड़ा, ग्राम-इन्द्रावलखुर्द, तहसील सैलाना, जिला-रतलाम

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (सी) अन्तर्गत सदस्य

1. श्री राम चौधरी, ग्राम-नारायणगढ़, तहसील सैलाना, जिला-रतलाम
2. श्री समरथ टांक, ग्राम-शिवगढ़, तहसील सैलाना, जिला-रतलाम

**धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (डी) अन्तर्गत सदस्य
शासन द्वारा मनोनीत**

1. अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस सैलाना
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सैलाना
3. शाखा प्रबंधक, लीड बैंक, सैलाना

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) अन्तर्गत सदस्य

1. प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक, सैलाना

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी

1. तहसीलदार, सैलाना

रतलाम जिले के उपखण्ड जावरा

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ए) अन्तर्गत अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जावरा अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (बी) अन्तर्गत सदस्य

1. श्री रमेशचन्द्र सुर्यवंशी, ग्राम-धतरावदा, जावरा, जिला-रतलाम
2. श्री राजेन्द्र कल्याण, जावरा, जिला-रतलाम
3. श्री लालू परमार, ग्राम-असावती, जिला-रतलाम

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (सी) अन्तर्गत सदस्य

1. श्री युसुफ पठान, ग्राम-रिंगनोद, तहसील जावरा, जिला-रतलाम
2. दिपाली कुमावत, जावरा, जिला-रतलाम

**धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (डी) अन्तर्गत सदस्य
शासन द्वारा मनोनीत**

1. अध्यक्ष जनपद पंचायत, जावरा
2. प्रबंधक, लीड संस्था, जावरा
3. अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी, जावरा

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) अन्तर्गत सदस्य

1. प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक, जावरा

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी

1. तहसीलदार, जावरा

रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 09-अ-82-2019-20-6261

श्योपुर, दिनांक 8 अगस्त 2019

(भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम छावर तहसील वीरपुर जिला, श्योपुर में कुल रकबा 0.872 हेक्टर भूमि अपैक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किरसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला --श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम छावर प.ह.न 26 रा.नि. वृत्त 01 में उक्त परियोजना के लिये 0.872 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -

स. क्र.	शर्त नं.	स्वागित्त्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टर में	हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	142	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.317	जगमोहन पुत्र हरि विलास जाति रावत निवासी छावर भूमि स्वामी, भू-राजस्व 5.51
2	143	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.555	मुल्ला पुत्र गया जाति रावत निवासी छावर भूमि स्वामी, भू-राजस्व 7.00
योग				0.872	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार: उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष— धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू - अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

बसंत कुर्रे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्र. क्र. 0039-अ-82-2019-20-191

श्योपुर, दिनांक 4 जनवरी 2020

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम बर्धाबुजुर्ग तहसील श्योपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 17.557 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला -श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम बर्धाबुजुर्ग प.ह.न 33 रा.नि. वृत्त 02 में उक्त परियोजना के लिये 17.557 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है

क.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितवद् व्यक्ति का नाम व पता राजस्व अभिलेखानुसार
1	2	3	4	5	6
1	8/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.023	रामसिंह,मानसिंह, सुल्तान,रागजीलाल, रामअवतार, पुत्रगण सिरिया चतरी वेवा सिरिया जाति जाटव निवासीग्राम
2	11/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.272	सलीम पुत्र इमामुद्दीन जाति मुसलमान नि.ग्राम
3	11/3 19/1 22/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.324	सलीम पुत्र इमामुद्दीन जाति मुसलमान नि.ग्राम
4	16	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.596	मु. कैलासी वेवा रामदयाल, अमर सिंह, हरि सिंह, बलराम पुत्रगण रामदयाल, रामा पुत्र रामदयाल जाति मीणा नि. ग्राम हिस्सा 1/2 रामकेलास पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम हिस्सा 1/2
5	17	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.125	मु. कैलासी वेवा रामदयाल, अमर सिंह, हरि सिंह, बलराम पुत्रगण रामदयाल, रामा पुत्र रामदयाल जाति मीणा नि. ग्राम हिस्सा 1/2 रामकेलास पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम हिस्सा 1/2
6	19/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.188	बाबू पुत्र राध्या जाति जाटव नि.ग्राम
7	20	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.486	रामसिंह,मानसिंह, सुल्तान, रामजीलाल, रामअवतार पुत्रगण सिरिया चतरी वेवा सिरिया जाति जाटव नि. ग्राम
8	22/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.178	बाबू पुत्र राध्या जाति जाटव नि.ग्राम
9	22/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.010	मु. मोत्या वेवा जग्गा, देवकिशन सियाराम रामप्रसाद रणजीत पुत्रगण जग्गा, वदाम पुष्पा पुत्रिया जग्गा जाति खकेरा नि. ग्राम हिस्सा समान भाग
10	23/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.314	रामकेलाश श्रीपाल माणिकचंद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना नि.ग्राम
11	23/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.303	बाबू पुत्र राध्या जाति जाटव नि.ग्राम
12	23/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.136	रतना पुत्र किशना जाति सहर नि.ग्राम
13	51/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.585	अमरसिंह पुत्र उकारसिंह जाति मीणा नि.ग्राम
14	51/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.105	शिशुपाल सिंह पुत्र उकार सिंह जाति मीना नि. ग्राम
15	52/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.264	शिशुपाल सिंह पुत्र उकार सिंह जाति मीना नि. ग्राम

16	58/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.314	अमरसिंह पुत्र उकारसिंह जाति मीणा नि.ग्राम
17	58/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.157	अमरसिंह पुत्र उकारसिंह जाति मीणा नि.ग्राम
18	59/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.052	छोटे सिंह पुत्र बाबूलाल जाति मीणा नि.ग्राम
19	59/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.320	छोटे सिंह पुत्र बाबूलाल जाति मीणा नि.ग्राम
20	60	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.711	शिशुपाल सिंह पुत्र उकार सिंह जाति मीणा नि. ग्राम
21	61/मिन,1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.798	हाजरा पत्नी नूरदीन जाति मुसलमान नि.ग्राम
22	67	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.056	प्रभूलाल पुत्र धूडिया जाति मीणा नि.ग्राम
23	100	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.213	माधोलाल पुत्र मोतीलाल जाति मीणा नि. ग्राम
24	101	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.742	माधोलाल पुत्र मोतीलाल जाति मीणा नि.ग्राम
25	102	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.460	श्रीपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा नि. ग्राम
26	103	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.563	जुल्लो वेवा अल्लादीन साजिद विलाल पुत्रगण अल्लादीन खतून रहीसा खतीजा आलमदी नजभा पुत्रिया अल्लादीन हिस्सा 8/9 मुनव्वार वेवा ईमामुद्दीन कामरान वा. अमन नाबा. पुत्रगण इमामुद्दीन इरम नाबा. पुत्री ईमामुद्दीन सर.मों हिस्सा 1/9 जाति मुसलमान नि.ग्राम
27	105	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.046	विजय पुत्र रोशन जाति मीणा नि. ग्राम
28	106 107	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.972	रोशन पुत्र रामनारायण जाति मीणा नि. ग्राम
29	108/2 109/1क	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.209	रोशन पुत्र रामनारायण जाति मीणा नि. ग्राम
30	109/1 मिन-1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.209	रोशन पुत्र रामनारायण जाति मीणा नि. ग्राम
31	109/2 109/3 109/4	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.745	हंसराज पुत्र रामनारायण जाति मीणा नि.ग्राम
32	110/1 111/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.261	शिवनारायण पुत्र रामपाल जाति गुर्जर नि.ग्राम
33	110/2 111/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.261	रामहेत पुत्र रामपाल जाति गुर्जर नि. ग्राम
34	110/3 111/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.251	छोटे पुत्र रामपाल जाति गुर्जर नि. ग्राम
35	112/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.010	छोटे पुत्र रामपाल जाति गुर्जर नि. ग्राम
36	249/ मिन-1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.212	राजाराम पुत्र काना जाति मीणा नि. ग्राम
37	253	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.013	बाबूलाल पुत्र रामनारायण जाति मीणा नि.ग्राम
38	256	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.084	शिशुपाल सिंह पुत्र औकार सिंह जाति मीणा नि. ग्राम
39	263	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.034	ब्रजमोहन,रामस्वरूप, रामविलास, पुत्रगण शम्भू गायत्री जमुनाबाई कान्हाबाई पुत्रिया शम्भू हिस्सा 6/7 समान व मु. छोटी वेवा रामचंद्र शिमला पुत्री रामचंद्र हिस्सा 1/7 समान भाग जाति भोई नि.श्योपुर भू-दान भूमिस्वामी
40	264	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.257	बाबूलाल पुत्र रामनारायण जाति मीणा नि.ग्राम
41	265	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.007	ब्रजमोहन,रामस्वरूप, रामविलास, पुत्रगण शम्भू गायत्री जमुनाबाई कान्हाबाई पुत्रिया शम्भू हिस्सा 6/7 समान व मु. छोटी वेवा रामचंद्र शिमला पुत्री रामचंद्र हिस्सा 1/7 समान भाग जाति भोई नि.श्योपुर भू-दान भूमिस्वामी
42	266	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.182	बाबूलाल पुत्र रामनारायण जाति मीणा नि.ग्राम
43	267	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.056	ब्रजमोहन,रामस्वरूप, रामविलास, पुत्रगण शम्भू गायत्री जमुनाबाई कान्हाबाई पुत्रिया शम्भू हिस्सा 6/7 समान व मु.

					छोटी वेवा रामचंद्र शिमला पुत्री रामचंद्र हिस्सा 1/7 समान भाग जाति भोई नि.शयोपुर भू-दान भूमिस्वामी
44	268	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.502	जानकी नटी पुत्री काना नारायण रघुवीर पुत्रगण काना जाति गुजर नि. ग्राम
45	270/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.010	शिवनारायण पुत्र रामपाल जाति गुर्जर नि.ग्राम
46	270/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.010	रामहेत पुत्र रामपाल जाति गुर्जर नि.ग्राम
47	270/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.021	छोटे पुत्र रामपाल जाति गुजर नि.ग्राम
48	271/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.345	हाजरा पत्नी नूरद्दीन जाति मुसलमान नि. ग्राम
49	271/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.178	नरेन्द्र बा. बलराम नाबा. पुत्रगण हरफूल सर.मॉ खुद अनीता पुत्री हरफूल रामसिया वेवा हरफूल रामसिया पुत्री गंगांराम जाति गुर्जर नि.ग्राम
50	274	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.251	परसराम पुत्र बिहारी जाति गुजर नि.ग्राम
51	275/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.563	धर्मराज अगद नरेश पुत्रगण मंशा जाति मीना नि.ग्राम समान भाग भूमिस्वामी राधाबाई पुत्री मंशा कमोद वेवा मंशा जाति मीना नि. ग्राम
52	276/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.200	धर्मराज अगद नरेश पुत्रगण मंशा जाति मीना नि.ग्राम समान भाग भूमिस्वामी राधाबाई पुत्री मंशा कमोद वेवा मंशा जाति मीना नि. ग्राम
53	278/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.231	प्रदीप मीणा पुत्र मुरारीलाल मीणा नि.ग्राम
54	279/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.282	बाबूलाल पुत्र रामनारायण जाति मीना नि. ग्राम
55	280/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.021	कुलविन्दर कोर वेवा जीवन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम
56	281/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.236	लखन पुत्र अर्जुन जाति मीना नि. ग्राम
57	283/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.302	कुलविन्दर कोर वेवा जीवन सिंह जाति जाट सिक्ख नि. ग्राम
58	282/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.393	जुल्लो वेवा अल्लादीन साजिद विलाल पुत्रगण अल्लादीन खतून रहीसा खतीजा आलमदी नजमा पुत्रिया अल्लादीन हिस्सा 8/9 मुनव्वार वेवा ईमामुद्दीन कामरान वा. अमन नाबा. पुत्रगण इमामुद्दीन इरम नाबा. पुत्री ईमामुद्दीन सर.मॉ हिस्सा 1/9 जाति मुसलमान नि.ग्राम
59	307/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.154	जीवन सिंह गुरनाम सिंह कुलवन्त सिंह पुत्रगण गुलजार सिंह जाति जाटसिख नि. ग्राम
60	308/1 क	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.061	जगदीश रामरूप रामराज पुत्रगण राधेश्याम रोशनी मिथलेश पुत्रिया राधेश्याम मु. बजरंगी वेवा राधेश्याम जाति गुजर नि. ग्राम हिस्सा 1/2 समान भाग भूमिस्वामी सीताबाई पुत्री हीरालाल जाति गुजर निवासी ग्राम हिस्सा 1/2
61	308/1ख	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.160	मु. पुष्पा वेवा सियाराम जाति गुजर नि.ग्राम समान भाग भूमिस्वामी रामस्वरूप रामप्रसाद पुत्र सियाराम जाति गुजर निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
62	308/3क	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.073	जगदीश रामरूप रामराज पुत्रगण राधेश्याम रोशनी मिथलेश पुत्रिया राधेश्याम मु. बजरंगी वेवा राधेश्याम जाति गुजर नि. ग्राम हिस्सा 1/2 समान भाग भूमिस्वामी सीताबाई पुत्री हीरालाल जाति गुजर निवासी ग्राम हिस्सा 1/2
63	308/3ख	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.046	मु. पुष्पा वेवा सियाराम जाति गुजर नि.ग्राम समान भाग भूमिस्वामी रामस्वरूप रामप्रसाद पुत्र सियाराम जाति गुजर निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
64	309/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.025	रामलाल पुत्र भोला जाति जाटव नि.ग्राम
65	309/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.152	रामलाल पुत्र भोला जाति जाटव नि.ग्राम
66	310/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.044	जगदीश रामरूप रामराज पुत्रगण राधेश्याम रोशनी मिथलेश पुत्रिया राधेश्याम मु. बजरंगी वेवा राधेश्याम जाति गुजर नि.

					ग्राम हिस्सा 1/2 समान भाग भूमिस्वामी सीताबाई पुत्री हीरालाल जाति गुजर निवासी ग्राम हिस्सा 1/2
67	313	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.274	रामस्वरूप पुत्र राधाकिशन जाति गुजर नि. ग्राम
68	314/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.050	इंसाफ पुत्र उमर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम
69	316	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.255	मनफूल रामस्वरूप गनपति अमरसिंह पुत्रगण हरिकिशन जाति मीना नि. ग्राम भूमिस्वामी हंसो भरोसी मेवा पुत्रिया हरिकिशन जाति मीणा नि. ग्राम 9/10 समान भाग भूमिस्वामी रामसिया वेवा रामहेत धारासिंह नाबा. पुत्र रामहेत जाति मीणा नि. ग्राम भूमिस्वामी किसकन्धा बा.फोरन्ती नाबा.पुत्रियां रामहेत सर.मां रामसिया जाति मीना नि.ग्राम 1/10 समान भाग भूमिस्वामी मंशा वन्शी पुत्रगण जगन्नाथ किशनी पुत्री जगन्नाथ जाति मीना नि.ग्राम 3/4 समान भाग भूमिस्वामी
70	317	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.169	सरवनलाल पुत्र गंगाराम जाति मीना नि.ग्राम भूमिस्वामी
71	318	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.331	फज्जी बाई पत्नी इसमाईल जाति मुसलमान निवासी ग्राम
72	319	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.114	अब्दुल पुत्र अहमद जाति मुसलमान नि.ग्राम
कुलकिता-72				17.557	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0040-अ-82-2019-20-193

(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम दातरदां खुर्द तहसील श्योपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 8.200 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला -श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम दातरदां खुर्द प.ह.न 33 रा.नि. वृत्त 02 में उक्त परियोजना के लिये 8.200 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है

क.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितवद्द व्यक्ति का नाम व पता राजस्व अभिलेखानुसार
1	2	3	4	5	6
1	12मिन1	शा.पट्टेदार	कृषिभूमि	0.073	भैरू पुत्र सरवन जाति सहर निवासी ग्राम
2	14/1	शा.पट्टेदार	कृषिभूमि	0.531	नन्हा पुत्र मोबिन जाति मुसलमान नि. बर्धाबुजुर्ग
3	14/2	शा.पट्टेदार	कृषिभूमि	0.560	मुन्ना पुत्र मोबिन जाति मुसलमान नि. बर्धाबुजुर्ग
4	15/3 मि. 2	शा.पट्टेदार	कृषिभूमि	0.079	मोहम्मद अली पुत्र रहमान जाति मुसलमान नि.ग्राम
5	46 मि.1ख	शा.पट्टेदार	कृषिभूमि	0.177	हनीफ पुत्र शौकत जाति मुसलमान नि.ग्राम
6	46मि.2	शा.पट्टेदार	कृषिभूमि	0.260	सजरुद्दीन पुत्र शौकत जाति मुसलमान नि. ग्राम
7	46मि.5	शा.पट्टेदार	कृषिभूमि	0.024	मुबारक अली पुत्र सजाउद्दीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम
8	47/1क	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.367	हफीज पुत्र शौकत अली जाति मुसलमान नि.ग्राम
9	47/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.344	रफीक पुत्र शौकत अली जाति मुसलमान नि.ग्राम
10	56/1क	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.251	सुलेमान पुत्र जाउद्दीन जाति मुसलमान नि.ग्राम
11	56/1ख	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.251	सुलेमान पुत्र जाउद्दीन जाति मुसलमान नि.ग्राम
12	56/1ग	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.104	रंगा,नैनु पुत्रगण सावला जाति सहर हिस्सा 1/4 जीना, रोशन, चन्दू, जगदीश, गणेश पुत्रगण हजारी खूमा वेवा हजारी हिस्सा 1/8 समान भाग, सीता वेवा सुखदेव प्रभू मन्नु बाबू पुत्रगण सुखदेव रामप्यारी कपूरी फूलो पुत्रिया सुखदेव हिस्सा 1/8 समान भाग कल्ली आनन्दी चन्दनिया पन्सूरी पुत्रिया सांवला हि. 1/2 समान भाग जाति सहर निवासी ग्राम
13	56/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.261	सजरुद्दीन जुम्मा हवीव पुत्रगण शौकतअली सजीदा खतीजा मुस्लिम छोटी पुत्रिया शौकतअली मु. बनो वेवा शौकतअली जाति मुसलमान नि.ग्राम समान भाग
14	57	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.262	सजरुद्दीन जुम्मा हवीव पुत्रगण शौकतअली सजीदा खतीजा मुस्लिम छोटी पुत्रिया शौकतअली मु. बनो वेवा शौकतअली जाति मुसलमान नि.ग्राम समान भाग
15	58	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.230	सजरुद्दीन जुम्मा हवीव पुत्रगण शौकतअली सजीदा खतीजा मुस्लिम छोटी पुत्रिया शौकतअली मु. बनो वेवा शौकतअली जाति मुसलमान नि.ग्राम समान भाग

16	59/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.272	रफीक पुत्र शौकत अली जाति मुसलमान नि.ग्राम
17	59/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.084	सजरुद्दीन जुम्मा हवीव पुत्रगण शौकतअली सजीदा खतीजा मुस्लिम छोटी पुत्रिया शौकतअली मु. बनो वेवा शौकतअली जाति मुसलमान नि.ग्राम समान भाग
18	61	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.013	रफीक पुत्र शौकत अली जाति मुसलमान नि.ग्राम
19	73	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.150	रफीक पुत्र शौकत अली जाति मुसलमान नि.ग्राम
20	85	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.002	इमामुद्दीन पुत्र अल्लादीन जाति मुसलमान नि.ग्राम
21	86	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.004	इमामुद्दीन पुत्र अल्लादीन जाति मुसलमान नि.ग्राम
22	87	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.037	इमामुद्दीन पुत्र अल्लादीन जाति मुसलमान नि.ग्राम
23	88	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.092	अहमद मुज्जफर सरदार आजाद मुस्तफा पुत्रगण बजीर शकीना वेवा बजीर असगरी जुल्लो जैतुन पुत्रिया बजीर जाति मुसलमान नि. ग्राम
24	89	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.079	अहमद मुज्जफर सरदार आजाद मुस्तफा पुत्रगण बजीर शकीना वेवा बजीर असगरी जुल्लो जैतुन पुत्रिया बजीर जाति मुसलमान नि. ग्राम
25	92	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.130	जनवेद भीमा बा. कल्लू नाबा. पुत्रगण सोपाल सर.मां खुद मीना बाई सोमवती बा. रामकथा भारती अराधना प्रबतीया नाबा. पुत्रिया सोपाल सर. मा खुद व रामकन्या वेवा सोपाल जाति सहर हि. 1/2 समान भाग व छोटी बाई पुत्री गेदिया जाति सहर हि. 1/2 नि. ग्राम
26	178/7मि. 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.358	सुलेमान पुत्र जाउद्दीन जाति मुसलमान नि.ग्राम
27	226मि.2	भूदान कृषक	कृषिभूमि	0.627	गन्नु गोपाल सीतू परमा पुत्रगण मदन, भगवती मनोखा बडदी पुत्रिया मदन जाति सहर निवासी ग्राम समान भाग
28	226/मि.3	भूदान कृषक	कृषिभूमि	0.627	गजरी वेवा सिध्या रोशन करन पुत्रगण सिध्या भन्ती अनिलो शम्भो गेंदी पुत्रिया सिध्या जाति सहर पता नि. ग्राम समान भाग
29	230	भूदान कृषक	कृषिभूमि	1.578	मु. जाहिरा वेवा अहमद असरफ अजफल फेसल बा. सुहेल नाबा. पुत्र अहमद सर. मा. जाहिरा खुद रेशमा मेहराज याशमीन पुत्रिया अहमद जाति मुसलमान पता नि. श्योपुर समान भाग
30	232	भूदान कृषक	कृषिभूमि	0.373	अहमद पुत्र अल्लादीन जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम
कुलकिता-30				8.200	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कृय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 0041-अ-82-2019-20-195

(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम हीरापुर तहसील कराहल जिला श्योपुर में कुल रकवा 3.585 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला -श्योपुर तहसील कराहल के ग्राम हीरापुर प.ह.न 01 रा.नि. वृत्त 02 में उक्त परियोजना के लिये 3.585 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टर मे	हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	245/मि.1	भूमिस्वामी अहस्ता.	कृषि भूमि	1.030	हजारी रंगा रतन पुत्रगण मथुरा जाति सहर नि.ग्राम
2	261	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.028	बृजराज हरिओम राधेध्याम पुत्रगण रामप्रसाद गीता पप्पी विमला पुत्रियान रामप्रसाद षन्ति वेवा रामप्रसाद जाति ब्राह्मण नि. ग्राम समान
3	262	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.029	उर्मिला वेवा हरिषंकर जितेन्द्र वा. महेश कमलेश नावा पुत्रगण हरिषंकर सर. मां उर्मिला हि8/28 काडी पुत्री मंगडा हि1/4 माधो पुत्र सौरम हीरा कांति गंगा पुत्रियान सौरम हि 1/4 समान कन्हैया महावीर पुत्रगण गोपाल द्वारिका सन्तो साबो मीरा पुत्रियान गोपाल हि6/28 समान जाति जाटव नि.ग्राम
4	263	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.350	कन्हैया महावीर पुत्रगण गोपाल द्वारिका सन्तो साबो पुत्रियान गोपाल हि6/7 समान उर्मिला वेवा हरीषंकर जितेन्द्र वा.महेश कमलेश नावा.पुत्रगण हरीषंकर सर. मा उर्मिला हि1/7समान जाति चमार

5	264	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.171	उर्मिला वेवा हरिषंकर जितेन्द्र वा.महेश कमलेश नाव पुत्रगण हरिषंकर सर. मां उर्मिला 8/28 काडी पुत्रि मंगडां 1/4 माघौ पुत्र सौराम हीरा कान्ति गंगा पुत्रियान सौराम 1/4समान कन्हैया महवीर पुत्रगण गोपाल द्वारिका सन्तो साबो मीरा पुत्रियान गोपाल हि 6/28 समान जाति जाटव नि.ग्राम
6	293	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	सीताराम पुत्र पन्ना जाति सहर नि.ग्राम
7	294	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	सीताराम पुत्र पन्ना जाति सहर नि.ग्राम
8	295	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.679	सीताराम पुत्र पन्ना जाति सहर नि.ग्राम
9	296	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	सीताराम पुत्र पन्ना जाति सहर नि.ग्राम
10	297	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.038	लडडू पुत्र हीरया भूरी वेवा ग्यारसा हि 2/3 समान गुडडा पुत्र हीरया हि 0.282 चतरी पत्नी रामचरण हि 0.314 जाति सहर नि. ग्राम
11	298	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.177	लडडू पुत्र हीरया भूरी वेवा ग्यारसा हि 2/3 समान गुडडा पुत्र हीरया हि 0.282 चतरी पत्नी रामचरण हि 0.314 जाति सहर नि. ग्राम
12	304	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.038	रामचरण , सोनपाल जयराम सियाराम पुत्रगण घन्ना चतरी कम्पूरी लीया रामदुलारी पुत्रयान घन्ना जाति सहर नि.ग्राम समान भाग
13	305	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.006	रामचरण , सोनपाल जयराम सियाराम पुत्रगण घन्ना चतरी कम्पूरी लीया रामदुलारी पुत्रयान घन्ना जाति सहर नि.ग्राम समान भाग
14	306	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.034	सीताराम पुत्र पन्ना जाति सहर नि.ग्राम
15	317	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.167	गनीमोहम्मद पुत्र मुनीर मोहम्मद जाति मुसलमान नि.ग्राम
16	318	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.033	गनीमोहम्मद पुत्र मुनीर मोहम्मद जाति मुसलमान नि.ग्राम
17	319	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.035	गनीमोहम्मद पुत्र मुनीर मोहम्मद जाति मुसलमान नि.ग्राम
18	329 मि.1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.187	नूरनिशा वेवा वसीर मोहम्मद जाति मसुसमान नि.ग्राम
19	323/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.207	गनीमोहम्मद पुत्र मुनीर मोहम्मद जाति मुसलमान नि.ग्राम
20	372/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	प्रभू पुत्र शंकर गुलाव बाई पुत्री शंकर जाति सहर नि.ग्राम समान भाग
	योग			3.585	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कराहल में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिरूपना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे ।

विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू - अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

प्र. क्र. 0042-अ-82-2019-20-197

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम गिरघरपुर तहसील कराहल जिला श्योपुर में कुल रकवा 12.222 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला -श्योपुर तहसील कराहल के ग्राम गिरघरपुर प.ह.न 01 रा.नि. वृत्त 02 में उक्त परियोजना के लिये 12.222 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -

स. क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टर में	हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	31/3	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.276	धौरा पुत्री हज्जू जाति सहरिया निवासी ग्राम
2	31/4	भूदान कृषक	कृषि भूमि	1.109	रघुनाथ, केदार, बल्लू, गुड्डा पुत्रगण छुटई उर्फ छोट्या कंपूरी, राधा, भरोषी, कम्मो, दक्खो पुत्रीयां छुटई उर्फ छोट्या जाति सहरिया निवासी ग्राम हीरापुर समान भाग
3	32	भूदान कृषक	कृषि भूमि	2.256	सियाराम पुत्र सुरजन किलाणी पुत्री सुरजन जाति सहरिया निवासी ग्राम समान भाग
4	33	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.564	दुल्ली बाबू गोपाल पुत्रगण वीरया जाति सहरिया निवासी ग्रा समान भाग
5	34	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.449	गुलाब पुत्र छीत्या जाति सहरिया निवासी ग्राम

6	36/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.436	श्रीकिषन पुत्र कम्मू भाटो रामपति परवीन पुत्रीयां कम्मू जाति सहरिया निवासी ग्राम
7	36/2	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.276	छोटू पुत्र बैज्या जाति सहरिया निवासी ग्राम
8	36/3	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.345	जुगराज श्रीपाल पुत्रगण नारु जाति सहरिया निवासी ग्राम समान भाग
9	41/7	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.158	हंसराज लेखपाल पुत्रगण बंषी इन्द्राबाई संजाबाई पुत्रीयां बंषी पानाबाई वेवा बंषी हिस्सा 1/4 समान मुकेश पुत्र वीरबल हिस्सा 1/4 रामप्रसाद पुत्र अमरा हिस्सा 1/4 मूर्ती बाई पुत्री अमरा हिस्सा 1/4 जाति हरजन निवासी ग्राम
10	41/8	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.227	जमीला वेवा नबाव खों हनीफ खों हबीब खों पुत्रगण नबाव खों रुखसाना शानू आयषा पुत्रीयां नबाव खों जाति मुसलमान निवासी ग्राम समान भाग
11	41/11	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.200	नारायण पुत्र राधेध्याम जाति मोंगिया निवासी ग्राम
12	41/12	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.210	ब्रजमोजन पुत्र राधेध्याम जाति मोंगिया निवासी ग्राम
13	41/13	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.156	नारायण बिरजू नाहरसिंह पुत्रगण राधेध्याम किन्ना शीला गंगो सुकता पुत्रीयां राधेध्याम हिस्सा 7/8 समान दिनेष पुत्र मोहन अनारवती वेवा मोहन हिस्सा 1/8 समान जाति मोंगिया निवासी ग्राम
14	44/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.806	अंगद पुत्र माध्या हिस्सा 1/3 दीपक पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/3 मोत्या कमली दुल्ली पुत्रीयां माध्या हिस्सा 1/3 जाति सहरिया निवासी ग्राम
15	44/2	भूदान कृषक	कृषि भूमि	2.090	बंजरंगा पुत्र जगदेव जाति सहरिया निवासी ग्राम
16	44/3	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.652	गुलाब पुत्र छीत्या जाति सहरिया निवासी ग्राम
17	45	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.029	गुलाब पुत्र छीत्या जाति सहरिया निवासी ग्राम
18	47	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.320	अमरलाल नृपत चिंदू रामदुलारे रतन पुत्रगण जगदेव दक्खों प्रेम गजरी पुत्रीयां जगदेव जाति सहरिया निवासी ग्राम समान भाग
19	59/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.332	गुलाब पुत्र छीत्या जाति सहरिया निवासी ग्राम
20	59/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.121	मु. हमीदा वेवा नजर मोहम्मद रफीक मोहम्मद शफी मोहम्मद इस्ताफ मोहम्मद अलताफ मोहम्मद पुत्रगण नजर मोहम्मद शमीम जरीना नजमा पुत्रीयां नजर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम समान भाग
21	60	शासकीय पट्टेदार भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.012	जुगराज श्रीपाल पुत्रगण नारु जाति सहरिया निवासी ग्राम
22	67	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.185	खेतम सिंह रामबहादुर धारासिंह सत्यनारायण पुत्रगण मथुरालाल शकुन्तला विमला राजिन्ना सुलोचना दिलखुष पुत्रीयां मथुरालाल अजोध्या वेवा मथुरालाल हिस्सा 10/36 समान राजेश विनोद अषोक लवकुष पुत्रगण लाखन मोबिना पुत्री लाखन बर्फी वेवा लाखन हिस्सा 1/36 समान गबो वेवा रामलखन पवन मनीष पुत्रगण रामलखन सरोज दुर्गा, लाल पिंकी पोस्ती पुत्रीयां रामलखन हिस्सा 1/36 समान बर्फी शीला पुत्रीयां अर्जुन हि 2/3 समान जाति मीणा निवासी ग्राम मेवाडा
23	72	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	खेतम सिंह रामबहादुर धारासिंह सत्यनारायण पुत्रगण मथुरालाल शकुन्तला विमला राजिन्ना सुलोचना दिलखुष पुत्रीयां मथुरालाल अजोध्या वेवा मथुरालाल हिस्सा 10/36 समान राजेश विनोद अषोक लवकुष पुत्रगण लाखन मोबिना पुत्री लाखन बर्फी वेवा लाखन हिस्सा 1/36 समान गबो वेवा रामलखन पवन मनीष पुत्रगण रामलखन सरोज दुर्गा, लाल पिंकी पोस्ती पुत्रीयां रामलखन हिस्सा 1/36 समान बर्फी शीला पुत्रीयां अर्जुन हि 2/3 समान जाति मीणा निवासी ग्राम मेवाडा
24	73	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.008	जुगराज श्रीपाल पुत्रगण नारु जाति सहरिया निवासी ग्राम

25	75	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.028	खेतम सिंह रामबहादुर धारासिंह सत्यनारायण पुत्रगण मथुरालाल शकुन्तला विमला राजिन्त्रा सुलोचना दिलखुष पुत्रीयां मथुरालाल अजोध्या वेवा मथुरालाल हिस्सा 10/36 समान राजेश विनोद अषोक लवकुष पुत्रगण लाखन मोबिना पुत्री लाखन बर्फी वेवा लाखन हिस्सा 1/36 समान गबो वेवा रामलखन पवन मनीष पुत्रगण रामलखन सरोज दुर्गा, लाल पिंकी पोस्ती पुत्रीयां रामलखन हिस्सा 1/36 समान बर्फी शीला पुत्रीयां अर्जुन हि 2/3 समान जाति मीणा निवासी ग्राम
26	78	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.574	खेतम सिंह रामबहादुर धारासिंह सत्यनारायण पुत्रगण मथुरालाल शकुन्तला विमला राजिन्त्रा सुलोचना दिलखुष पुत्रीयां मथुरालाल अजोध्या वेवा मथुरालाल हिस्सा 10/36 समान राजेश विनोद अषोक लवकुष पुत्रगण लाखन मोबिना पुत्री लाखन बर्फी वेवा लाखन हिस्सा 1/36 समान गबो वेवा रामलखन पवन मनीष पुत्रगण रामलखन सरोज दुर्गा, लाल पिंकी पोस्ती पुत्रीयां रामलखन हिस्सा 1/36 समान बर्फी शीला पुत्रीयां अर्जुन हि 2/3 समान जाति मीणा निवासी ग्राम मेवाडा
27	81	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.128	खेतम सिंह रामबहादुर धारासिंह सत्यनारायण पुत्रगण मथुरालाल शकुन्तला विमला राजिन्त्रा सुलोचना दिलखुष पुत्रीयां मथुरालाल अजोध्या वेवा मथुरालाल हिस्सा 10/36 समान राजेश विनोद अषोक लवकुष पुत्रगण लाखन मोबिना पुत्री लाखन बर्फी वेवा लाखन हिस्सा 1/36 समान गबो वेवा रामलखन पवन मनीष पुत्रगण रामलखन सरोज दुर्गा, लाल पिंकी पोस्ती पुत्रीयां रामलखन हिस्सा 1/36 समान बर्फी शीला पुत्रीयां अर्जुन हि 2/3 समान जाति मीणा निवासी ग्राम मेवाडा
28	82	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.265	बजरंगा ग्यारसी मांगी पुत्रगण रामकिषन गुलाबबाई कल्लो कल्याणी पुत्रीयां रामकिषन जाति सहरिया निवासी ग्राम समान भाग
योग				12.222	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कराहल में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे ।

विशेष— धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

प्र. क्र. 0043-अ-82-2019-20-199

(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलाँ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम बीरपुर तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 8.397 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम बीरपुर प.ह.न 25 रा.नि. वृत् 01 में उक्त परियोजना के लिये 8.397 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -

स. क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	कृषक का नाम पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	575	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.662	रामबाई पुत्री देवीलाल पत्नि मदन, मुन्नी पुत्री देवीलाल पत्नि नेहने जाति कोरी नि.ग्राम स.भा. भूमिस्वामी
2	576	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.023	मुल्ला पुत्र भोला जाति कोरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
3	577	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.074	रामचरण पुत्र भोला जाति कोरी नि.ग्राम भूमि स्वामी
4	583	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	शिवचरण पुत्र मनोहरलाल जाति ब्रा. नि. ग्राम भूमि स्वामी
5	584/मि 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.050	बद्रीप्रसाद मनीराम पुत्रगण पांच्या जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
6	584/मि 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.005	मनीराम पुत्र नकटू जाति कोरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

7	584/मि 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.100	महेश्वरी पुत्री रघुवर जाति कलार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
8	584/मि 4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.110	आशा पुत्री गजानन्द जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
9	585	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.006	रामविलासी पत्नि लोचेराम जाति राठौर नि.ग्र. भूमि स्वामी
10	586	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.037	सुरेश पुत्र जगनू जाति कुम्हार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
11	586/1155	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.090	नकटू पुत्र देवलाल जाति कोरी पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार लगान
12	681	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188	देवीराम पुत्र मंगला जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
13	682	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.020	मोती पुत्र हनू जाति जाटव नि.ग्र. शासकीय पट्टेदार
14	683	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031	केदार पुत्र हरिमुख जाति जाटव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
15	684	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.040	रामहेती वेवा चीमा जगदीश बलभद्र पिता चीमा जाति ब्राम्हण नि. ग्राम स.भा भूमि स्वामी
16	686	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	गफूर खां पुत्र चुन्नी खां जाति मुसलमान पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
17	687	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031	गोविन्द रामकिशन शिवचरण रामचरण नारायण पिता बुद्ध रामहेती हरबाई पुत्रियां बुद्ध कंचन वेवा बुद्ध जाति जाटव पता नि. ग्राम स.भा. भूमि स्वामी
18	739	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.210	रामकली वेवा रामचरण कैलाशी रामकुमार बंटी बा. संजय राजेन्द्र नावा. पुत्रगण रामचरण सर. मां खुद जाति कलार पता नि. ग्राम 1/2 स.भा. भूमि स्वामी चिरोंजी पुत्र गणपति जाति कलार पता नि.ग्राम 1/2 स.भा. भूमि स्वामी
19	740	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.092	चिरोंजी पुत्र गणपति जाति कलार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
20	741	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.331	रतनी वेवा घन्सू ग्यासी पत्नि अमरचन्द स.भा. 1/2 शांति वेवा नरेश उदयभान पुत्रगण नकटू शांति लेखा नावा. पुत्रियां नकटू सर. मां खुद जाति जाटव पता नि. ग्राम 1/2 स.भा. भूमि स्वामी
21	742	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.014	लालाराम हरि लाला पुत्रगण छुट्टन बिंदा ल्होई बल्ला पुत्रियां छुट्टन ल्होवा वेवा छुट्टन जाति जाटव पता नि. ग्राम स.भा. भूमि स्वामी
22	743	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.180	लालाराम हरि लाला पुत्रगण छुट्टन बिंदा ल्होई बल्ला पुत्रियां छुट्टन ल्होवा वेवा छुट्टन जाति जाटव पता नि.

					ग्राम स.भा. भूमि स्वामी
23	744	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.309	रामदयाल पुत्र गेंदया रामश्री शान्ति काशी लीला पुत्रियां गेंदया मुल्लो वेवा गेंदया जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
24	745	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.077	बूटा पुत्र लल्लू जाति जाटव नि.ग्राम भूमि स्वामी
25	799	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.003	रामचरण छोटे पुत्रगण मंगला जाति जाटव नि.ग्राम भूमि स्वामी
26	827	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.002	रामचरण छोटे पुत्रगण मंगला जाति जाटव नि.ग्राम भूमि स्वामी
27	828	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.231	नसीर खां पुत्र लाल खां जाति मुसलमान पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी
28	829	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.236	नसीर खां पुत्र लाल खां जाति मुसलमान पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी
29	838	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.367	आशुतोष पुत्र शिवचरणलाल जाति ब्राम्हण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
30	839	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.002	शरीफ जलील पि. बसीर जाति मुसलमान पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी
31	875	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.009	किशोरीलाल पुत्र भगवानलाल जाति ब्राम्हण पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी
32	876	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.230	प्रेम कुमारी पत्नि दामोदर जाति ब्राम्हण पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी
33	877	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.621	गोपाल पुत्र मोतीलाल जाति ब्राम्हण पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी
34	878	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.014	किशोरीलाल ब्रजभूषण पुत्रगण भगवानलाल द्रोपती पुत्री भगवानलाल जाति ब्राम्हण पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी
35	885	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.512	शांति वेवा हरगोविंद राजकुमार पुत्र हरगोविंद जाति कलार पता नि. ग्राम स.भा. भूमि स्वामी
36	920	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.155	शिवचरणलाल पुत्र मनोहरलाल जाति ब्राम्हण पता नि० ग्राम भूमिस्वामी
37	933	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.139	जाकिर मोहम्मद पुत्र रमजान खाँ जाति मुसलमान पता नि० ग्राम भूमिस्वामी

38	934	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.030	जाकिर मोहम्मद पुत्र रमजान खॉ जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
39	957	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.088	सरोज मनोज सीमा राधा ममता पुत्रियां दुर्गाप्रसाद जाति ब्रा. हि 918 वर्गफुट स.भा., कृपाचरण अजय पुत्रगण देवीलाल कमला फूलवती रामेश्वरी रामलता पुत्रियां देवीलाल जाति ब्रा. हि 5508 वर्गफुट स.भा. सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति वैश्य हि 12119 वर्गफुट, मातादीन पुत्र बाबूलाल जाति ब्रा. नि. सबलगड 13120 वर्गफुट स.भा. श्रीराम पुत्र सुरेशचन्द्र जाति वैश्य नि. कैलारस हि 10720 वर्गफुट स.भा. ओमप्रकाश पुत्र चिरोंजीलाल जाति वैश्य नि.ग्राम 13120 वर्गफुट भूमिस्वामी पवन कुमार पुत्र जगदीश जाति वैश्य नि.ग्राम 1000 वर्गफुट माखनलाल पुत्र बद्रीप्रसाद कमलादेवी पत्नि माखनलाल जाति वैश्य पता नि.ग्राम 2400 वर्गफुट भूमि स्वामी दुर्गेश पत्नि बीरेन्द्र जाति ब्रा.नि. ग्राम हि. 22 x 55 = 1210 वर्गफुट भूमि स्वामी ओमवती पत्नि कैलाश जाति वैश्य 30 x 50 = 1500 वर्गफुट लक्ष्मी पत्नि बसंत जाति योगी नि. ग्राम हि. 20 x 50 = 1000 वर्गफुट कल्याणा पत्नि मुकेश जाति योगी नि.ग्राम 1074 वर्गफुट भूमि स्वामी
40	959	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.200	साविर मोहम्मद पुत्र रमजान खॉ जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
41	960	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.003	पुत्तुलाल श्रीनिवास पुत्रगण भगवानलाल जाति ब्राम्हण पता नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
42	968	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.193	योगेश कुमार वीरेन्द्र कुमार पुत्रगण छोटेलाल जाति ब्राम्हण पता नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
43	971	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.247	साविर मोहम्मद पुत्र रमजान खॉ जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी, मोहनलाल पुत्र देवीप्रसाद जाति नाई पता नि0 ग्राम 1000 वर्गफुट भाग भूमिस्वामी
44	972	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.079	साविर मोहम्मद पुत्र रमजान खॉ जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी, मोहनलाल पुत्र देवीप्रसाद जाति नाई पता नि0 ग्राम 1000 वर्गफुट भाग भूमिस्वामी
45	987	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.153	विमला उर्मिला पुत्रियाँ लक्ष्मीनारायण समान भाग 1/2, हरीचरण शिवचरण विष्णुचरण पिता लक्खुराम समान भाग 1/2 जाति ब्राम्हण पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
46	988	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.375	विमला उर्मिला पुत्रियाँ लक्ष्मीनारायण समान भाग 1/2,

					हरीचरण शिवचरण विष्णुचरण पिता लखुराम समान भाग 1/2 जाति ब्राम्हण पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
47	998	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.206	केशरी बेवा लालचन्द सुरेश पुत्र लालचन्द जाति जोशी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
48	999	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.027	जवाहरलाल पुत्र मुरलीधर जाति ब्राम्हण पता नि0 ग्राम शासकीय पट्टेदार लगान 1.00
49	1008	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.299	रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल जाति ब्राम्हण पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
50	1012	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.002	केदार पुत्र ब्रजमोहन जाति ब्राम्हण पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
51	1013	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.015	केदार पुत्र ब्रजमोहन जाति ब्राम्हण पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
52	1014	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.539	श्रीनिवास पुत्र रामकिशोर शकुन्तला कुसुम पुत्रीयां रामकिशोर जाति ब्राम्हण पता नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
53	1015	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.058	बाबूलाल पुत्र सुन्दरलाल जाति नाथ पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
54	1016	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.104	रामनाथी बेवा रतनलाल देवीप्रसाद हरिओम पुत्र रतनलाल मीरा पुन्नो पुत्रियां रतनलाल जाति माली पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
55	1017 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.166	अँगूरी पुत्री कन्हैयालाल जाति गौड पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
56	1017 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.166	होरीलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति गौड पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
57	1018	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.076	श्रीनिवास पुत्र रामकिशोर शकुन्तला कुसुम पुत्रीयां रामकिशोर जाति ब्राम्हण पता नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
58	1019	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.003	हरीओम पुत्र जुगलकिशोर उषा पुत्री जुगलकिशोर जाति ब्राम्हण पता नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
	योग			8.397	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे ।

विशेष— धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू - अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

प्र. क्र. 0044-अ-82-2019-20-201

(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम लक्ष्मणपुरा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 3.587 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम लक्ष्मणपुरा प.ह.न 07 रा.नि. वृत् 02 में उक्त परियोजना के लिये 3.587 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -

स. क.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	कृषक का नाम पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	11/8 ड	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.096	रोशन पुत्र गोपी कमला, भगवती रामश्री पुत्रियां गोपी जाति सैर नि.ग्राम स.भा. भू आ.
2	11/8 घ	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.029	भम्भू छीतरिया ढोला पुत्रगण रामहेत जाति सैर हि 1/4 स. भाग रामलखन बा. पप्पू नावा. पुत्रगण हजारी सर. मा. नैनी वेवा हजारी हि 1/4 स.भा. सीताराम पुत्र रतन हि 1/4 माहो पुत्री रतन हि 1/4 भूदान कृषक भूआ.1.87
3	11/8क	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.061	मु.घन्सो वेव बुद्धा बीरबल, कप्तान नावा. पुत्रगण बुद्धा सर. मा. घन्सो जाति बंजारा नि. महुआमार भूआ. 3.75
4	11/8ख	भूदान	कृषि भूमि	0.130	इमरती पत्नि डूंगा,बृजमोहन विजयसिंह कल्ला हरिविलास

		कृषक			पुत्रगण डूंगा, शीला माया पुत्रियां डूंगा स.भा. जाति बन्जारा नि. महुआमार भूआ 3.75
5	11/8	भूदान से भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.263	ऊदा, जयराम, मोहरसिंह पुत्रगण बन्शी सेठानी निहालदे पुत्रियां मुन्शी स.भा. जाति बन्जारा नि. महुआमार
6	12/3	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.043	इमरती पत्नि डूंगा, बृजमोहन विजयसिंह कल्ला हरिविलास पुत्रगण डूंगा, शीला माया पुत्रियां डूंगा स.भा. जाति बन्जारा नि. महुआमार भूआ 3.75
7	12/4	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.059	इमरती पत्नि डूंगा, बृजमोहन विजयसिंह कल्ला हरिविलास पुत्रगण डूंगा, शीला माया पुत्रियां डूंगा स.भा. जाति बन्जारा नि. महुआमार भूआ 3.75
8	12/8मि1	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	डूंगा पुत्र देवा जाति बन्जारा नि. महुआमार भूआ. 9.88
9	12/8मि3	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084	हेरवान सिंह पुत्र बिहारी जाति ठाकुर नि. महुआमार भूआ. 2.87
10	12/6मि1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.212	ऊदा पुत्र मुन्शी जाति बन्जारा नि. महुआमार भूआ. 11.22
11	12/7	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		ऊदा पुत्र मुन्शी जाति बन्जारा नि. महुआमार भू.शा. 12/6
12	12/2मि2	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.418	रामकिशन पुत्र कल्याणसिंह जाति ठाकुर नि. महुआमार भूआ. 2.88
13	12/2मि1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.418	मु.घन्सो वेव बुद्धा बीरबल, कप्तान नावा. पुत्रगण बुद्धा सर. मा. घन्सो जाति बन्जारा नि. महुआमार भूआ. 2.87
14	12/1	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.815	सरवन पुत्र ऊकार जाति बन्जारा नि महुआमार भूआ. 5.62
15	12/5	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.050	चतरू, मानसिंह वा. राजाराम परिमाल नावा. पुत्रगण करन जाति बन्जारा रामश्री रुमाली शान्ति नावा. पुत्रियां करन मु. केसर वेवा करन जाति बन्जारा नि. महुआमार स.भा. भूआ. 2.25
16	12/6	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.090	चतरू, मानसिंह वा. राजाराम परिमाल नावा. पुत्रगण करन जाति बन्जारा रामश्री रुमाली शान्ति नावा. पुत्रियां करन मु. केसर वेवा करन जाति बन्जारा नि. महुआमार स.भा. भूआ. 2.25

17	7/7	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.110	अर्जुन पुत्र दौजा जाति सैर नि. ग्राम भूदान कृषक भूआ. 8. 64
18	7/4	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.238	मु.पुशमा वेवा कंचन सोवरन अतरसिंह मंगलसिंह वा. संतोषसिंह अमृतलाल विक्रमसिंह ना.वा. पुत्रगण कंचन सर.मा. जाति बन्जारा नि. महुआमार स.भा. भू आ. 5.00
19	7/2मि1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.214	गुंजा पुत्री पृथ्वी जाति बन्जारा नि. सुमरेरा भूआ. 1.25
20	7/2मि2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.141	श्रीमति उर्मिला बाई पत्नि महावीरप्रसाद जाति सोनी नि. रघुनाथपुर भूआ. 3.75
21	11/2	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.053	बन्टी सतीश सोनू नरेश पुत्रगण पूरन उर्मिला पुत्री पूरन हि. 1/5 स.भाग ब्रम्हा वा. रामदयाल रामबल नावा. पुत्रगण अंगद पन्सूरी वेवा अंगद हि 1/4 स.भा. जाति सहर भूआ. 1.69
	योग			3.587	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे ।

विशेष— धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू – अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला मुरैना

प्र. क्र. 54-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-236

मुरैना दिनांक 6 जनवरी 2020

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम देवपुर प0ह0क0-48 रा0नि0 वृत्त-38 तहसील-सबलगढ उपखण्ड- सबलगढ जिला-मुरैना में कुल 8.098 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-देवपुर प0ह0क0-48 रा0नि038 वृत्त-02 तहसील- सबलगढ उपखण्ड- सबलगढ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	सबलगढ
ग. ग्राम	देवपुर
घ. लगभग क्षेत्रफल	8.098 हेक्टेयर

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	140	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.600	0.073	श्रीनिवास नरोत्तम पुत्रगण प्रभु रामपति बैकुण्ठी पुत्रियां प्रभु समान भाग 5/24 रमेशचन्द्र पुत्र रामस्वरूप, रामदयाल, पुत्र हजारी सम्पती पुत्री हजारी 15/24 समान भाग भूमि स्वामी रामप्रसाद पुत्र मोती रामहेती पुत्री मोती हि0 1/6 समान भाग पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
2	153	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.030	0.116	शंकर पुत्रगण काशीराम हि0 1/2, महेश, सियाराम पुत्रगण शंकर हि0 1/2 स0 भा0 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी भू0रा0 14.69
3	158	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.300	0.057	हरिचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार समान भाग 1/4 शिवचरन रोशन

						रामनिवास वा० रामलखन नावा० पुत्रगण केशव मु० छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी कमलेश रूमाली ल्होरी वा० रूपो नावा० पुत्रियां केशव सर० मा० खुद हि० 1/4 समान भाग जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी श्रीधर पुत्र त्रिलोका वसन्ती बेवा त्रिलोका कलावती वा० वतोला नावा पुत्रियां त्रिलोका सरप० मां 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी मानन्द वालमुकून्द पुत्रान गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि० 4/12 मु० रामकटोरी बेवा रमले लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रमले विमला कमला दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि० 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.00
4	160	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.460	0.368	रामराज सुरेश वा० पप्पू नावा पुत्रगण जीवनलाल सर मां खुद कोशा पुत्री जीवनलाल जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी।
5	168	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.870	0.009	रामराज सुरेश वा० पप्पू नावा० पुत्रगण जीवनलाल सर मां खुद कोशा पुत्री जीवनलाल जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी।
6	201	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.650	0.408	श्रीकान्त रमाकान्त नरेश बीरेन्द्र बिष्णू पुत्रगण बनमाली निर्मला कुसुम पुत्रियां बनमाली जाति ब्रा० पता नि० ग्राम सवलगढ समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.19
7	202	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.780	0.403	लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि० 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु० महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त हेमन्त पुत्रगण उमाकान्त रश्मि पुत्री उमाकान्त स० भाग 5/12 जाति ब्रा० पता नि० सवलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.31

8	203	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	0.030	लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि0 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु0 महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त हेमन्त पुत्रगण उमाकान्त रश्मि पुत्री उमाकान्त स0 भाग 5/12 जाति ब्रा0 पता नि0 सवलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.42
9	204	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.720	0.456	होरीलाल पुत्र मुरली हि0 1/2 सोनपाल पुत्र रामचरन दोनो जाति काछी हि0 1/10 सतीश पुत्र बाबूलाल बादामी पत्नी सतीश राठौर हिस्सा 3/10 समान भाग कमलेश पत्नी नरोत्तम राठौर हि0 1/10 पता नि0 सीतापुर वस्ती सबलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.82
10	214	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.560	0.447	होरीलाल पुत्र मुरली हि0 0.28/56 सोनपाल बिरेन्द पुत्रगण रामचरण हि0 0.112/56 शीला पुत्री रामचरण हि0 0.03/56 सभी जाति काछी कमलेश पत्नी नरोत्तम राठौर पता नि0 सितापुर वस्ती सवलगढ 0.138/56 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.56
11	215	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	0.038	लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि0 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु0 महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त हेमन्त पुत्रगण उमाकान्त रश्मि पुत्री उमाकान्त स0 भाग 5/12 जाति ब्रा0 पता नि0 सवलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.42
12	216	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.690	0.549	लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि0 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु0 महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त हेमन्त पुत्रगण उमाकान्त रश्मि पुत्री उमाकान्त स0 भाग 5/12 जाति ब्रा0 पता नि0 सवलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.59
13	218	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.650	0.003	रामरूप जितेन्द पुत्रगण सुरेशकुमार हि0 1/5 समान भाग मु0 रामश्री

						बेवा जीवनलाल कल्याण रदन दाताराम हलुका पुत्रगण जीवनलाल हरेती ममता पुत्रीया जीवनलाल हि01/5 समानभाग मु0 मंगल वेवा गज्जे कमलसिंह भूपसिंह दौलतराम पुत्रगण गज्जे रुमाली गुडडी मीना मीरा पुत्रीया गज्जे समान हि0 1/5 समान भाग भूमि स्वामी मु0 सवित्री वेवा रघुनन्दन रामरूप पुत्र रघुनन्दन रामदेई रामरती लीला हको भूरी पुत्रिया रघुनन्दन समान भाग 1/10 मु0 ल्होईबाई वेवा वद्रीप्रसाद हि0 1/10 प्रहलाद नरेश सुरेश अमरसिंह पुत्रगण गणेशा रामपति सुनीता पुत्रियां गणेशा समान भाग 1/5 जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 9.31
14	219	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	0.330	मु. बैजन्ती बेवा भरतलाल मानसिंह नावा पुत्र भरतलाल ललिता कल्ले धन्नी नावा पुत्रियां भरतलाल सर0 मां जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00
15	220	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.610	0.178	रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह आ अंगद जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू0रा0शा0 बिलमुक्ता 32.57
16	221	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	0.150	मु. बैजन्ती बेवा भरतलाल मानसिंह नावा पुत्र भरतलाल ललिता कल्ले धन्नी नावा पुत्रियां भरतलाल सर0 मां जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.17
17	222	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.120	0.120	रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह पुत्रगण अंगद जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.94
18	223	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.730	0.296	रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह पुत्रगण अंगद जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू0रा0शा0नं0 220
19	226	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.680	0.328	रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह पुत्रगण अंगद जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी

						भू0रा0शा0नं0 220
20	228	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	0.030	मंदिर पुख्ता श्री मुरलीमनोहर जी बाके ग्राम ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना शासकीय पटटेदार भू0 रा0 शा0 5
21	229	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.120	0.085	मंदिर पुख्ता श्री मुरलीमनोहर जी बाके ग्राम ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना शासकीय पटटेदार भू0 रा0 शा0 5
22	230	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.370	0.365	रामगोपाल रामनारायण पुत्रगण अंगद जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00
23	235	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	0.022	हरीचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
24	259	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.460	0.090	हरीचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार समान भाग 1/4 शिवचरन रोशन रामनिवास बा0 रामलखन नाबा0 पुत्रगण केशव मु0 छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी कमलेश रूमाली ल्होरी बा0 रूपो नाबा0 पुत्रियां केशव सर0 मां खुद हि0 1/4 समान जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी श्रीधर पुत्र त्रिलोका बसन्ती बेवा त्रिलोका कलावती बा0 वतोला नाबा0 पुत्रियां त्रिलोका सर0 मां 1/12 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी मानन्द बालमुकन्द पुत्रान गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि0 4/12 मु0 रामकटोरी बेवा रमले लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रमले विमला कमला दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि0 1/12 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
25	280	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.007	रमेश भगवानसिंह कैलाशचन्द्र धनीराम पुत्रगण रामचरन समान भाग जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।

26	282	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.560	0.560	हरीचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार समान भाग 1/4 शिवचरन रोशन रामनिवास बा० रामलखन नाबा० पुत्रगण केशव मु० छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी कमलेश रूमाली ल्होरी बा० रूपो नाबा० पुत्रियां केशव सर० मां खुद हि० 1/4 समान जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी श्रीधर पुत्र त्रिलोका बसन्ती बेवा त्रिलोका कलावती बा० वतोला नाबा० पुत्रियां त्रिलोका सर० मां 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी मानन्द बालमुकन्द पुत्रान गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि० 4/12 मु० रामकटोरी बेवा रमले लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रमले विमला कमला दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि० 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
27	284	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.320	0.320	महेश सियाराम पुत्रगण शंकर जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
28	285	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	0.060	शंकर पुत्र काशीराम हि० 1/4 महेश सियाराम पुत्रगण शंकर हि० 1/4 समान भाग मुरारी बिजयसिंह पुत्रगण सुखुआ मिथलेश पुत्री सुखुआ हि० 1/2 समान भाग जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू०रा०शा० लगान मुक्त।
29	288	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.450	0.017	मु० मुल्लाबाई बेवा बुद्धू लाखनसिंह बीरवल पुत्रगण बुद्धू रेवती फूला लेखा रामरती पुत्रियां बुद्धू जाति रावत पता नि०ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
30	302	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	0.013	मुन्शी पुत्र लखपती नर्वदा सुआबाई पुत्रियां लखपति जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.75
31	304	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.400	0.400	हरिचरन श्रीनिवास रमेश रामजी

						पुत्रगण ऊकार मुन्नी पुत्री ऊकार समान भाग 1/4 शिवचरन रोशन रामनिवास वा0 रामलखन नावा0 पुत्रगण केशव मु0 छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी कमलेश रूमाली ल्होरी वा0 रूपो नाबा0 पुत्रियां केशव सर0 मां0 खुद हि0 1/4 समान भाग जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी श्रीधर पुत्र त्रिलोका वसन्ती बेवा त्रिलोका कलावती वा0 वतोला नावा पुत्रियां त्रिलोका सरप0 मां 1/12 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी मानन्द वालमुकून्द पुत्रान गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि0 4/12 मु0 रामकटोरी बेवा रमले लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रमले विमला कमला दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि0 1/12 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 259
32	305	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270	0.270	श्रीनिवास नरोत्तम पुत्रगण प्रभु रामपति बैकुन्ती पुत्रियां प्रभू समान भाग 5/24 रमेशचन्द्र पुत्र रामस्वरूप रामदयाल पुत्र हजारी सम्पती पुत्री हजारी 15/24 समान भाग भूमि स्वामी रामप्रसाद पुत्र मोती रामहेती पुत्री मोती जाति रावत पता नि0 ग्राम 1/6 भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.56
33	306	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	0.280	कम्पोटर पुत्र लखपति नर्वदा सुआबाई पुत्रियां लखपति जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.00
34	308	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.590	0.053	भीमसेन बादशाह पुत्रगण कन्हैया हि0 2/8 समान भाग भूमि स्वामी लीला बाबूली शीला मीरा पुत्रियां कन्हैया हि0 4/8 समान भाग मु0 पपीता बेवा दिनेश अरविन्द रविन्द्र नावा0 पुत्रगण दिनेश सरप0 मा0 खुद हि0 1/8 समान भाग राकेश

						पुत्र रामदीन भाग 1/8 प्रति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.46
35	309	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.450	0.064	महोरसिंह हुकुमसिंह नावा० पुत्रगण शिवसिंह सर० मु० नारायणी मा० खुद समान भाग 2/3 राकेश सुरेन्द्र राजेन्द्र नावा० पुत्रगण कम्पोटर सरप० कम्पोटर पिता खुद जाति रावत पता नि० ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.63
36	311	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.230	कम्पोटर पुत्र लखपति नर्वदा सुआबाई पुत्रियां लखपति जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.60
37	312	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	0.121	मु. नारायणी बेवा शिवसिंह हाकिम सिंह हुकुमसिंह नावा० पुत्रगण शिवसिंह सरप० मा० खुद जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी रामकेशर रामवती पिस्ता नावा० पुत्रियां शिवसिंह सर० मु० खुद जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.30
38	318	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.980	0.374	रामप्रकाश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी ब्रा० पता नि० सवलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 7.94
39	320	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.440	0.378	रामप्रकाश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी ब्रा० पता नि० सवलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.56
कुल किता 39				16.630	8.098	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 34-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-17-18-237

{ (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिए अतिरिक्त भूमि ग्राम- खोह, प०ह०क०-३.६. रा०नि० वृत्-०.२. तहसील -सवलगढ उपखण्ड- सबलगढ जिला-मुरैना में कुल 17.030 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- खोह प०ह०क०-३.६. रा०नि० वृत्-०.२. तहसील- सवलगढ उपखण्ड- सबलगढ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	सवलगढ
ग. ग्राम	खोह
घ. लगभग क्षेत्रफल	17.030 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	59	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.410	0.153	कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग रकबा 0.47 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग हि० 0.06 जीगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स० भाग हि० 0.48 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग रकबा 0.05 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० 1.04 ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक

					<p>हि0 0.35 सरवदी पुत्री रामचरण हि0 0.26 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पिता परिमाल गया कौशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु0 रामवाई बेबा परिमाल हि0 3.25 हैक्ट0 सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स0 भा0 रकबा 3.66 है0 मु0 सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स0 भाग हि0 0.41 है0 रामसिंह पुत्र मदनू हि0 रकबा 0.95 है0 गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.46 है0 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया स0 भाग रकबा 2.11 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स0 भा0 0.74 है0 जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स0 भा0 रकबा 0.35 है0।</p>	
2	64	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.500	0.291	<p>कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियां. बलबंत समान भाग रकबा 0.47 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियां रोशन समान भाग हि0 0.06 जीगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स0 भाग हि0 0.48 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियां केदार समान भाग रकबा 0.05 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि0 1.04 ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि0 0.35 सरवदी पुत्री रामचरण हि0 0.26 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पिता परिमाल गया कौशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु0 रामवाई बेबा परिमाल हि0 3.25 हैक्ट0 सामन्त</p>

						रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स० भा० रकबा 3.66 है० मु० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रुमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स० भाग हि० 0.41 है० रामसिंह पुत्र मदनू हि० रकबा 0.95 है० गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.46 है० धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया स० भाग रकबा 2.11 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स० भा० 0.74 है० जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रुमाली पुत्रियां विहारी स० भा० रकबा 0.35 है०।
3	65	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.180	0.104	बाबूलाल रघुनन्दन आ० गंगोली गयाबाई मानबाई पुत्रियां गंगोली जाति काछी पता नि० ग्राम पचेर भूमिस्वामी।
4	66	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.730	0.326	कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बगवारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियां बलबंत समान भाग रकबा 0.47 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियां रोशन समान भाग हि० 0.06 जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स० भाग हि० 0.48 सुन्ती बेबा केदार विकास पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियां केदार समान भाग रकबा 0.05 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० 1.04 ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० 0.35 सरवदी पुत्री रामचरण हि० 0.26 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पिता परिमाल गया कौशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु० रामवाई बेबा परिमाल हि० 3.25 हैक्ट० सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स० भा० रकबा 3.66 है० मु०

						सावित्री बेबा चिरोंजी, गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स० भाग हि० 0.41 है० रामसिंह पुत्र मदनू हि० रकबा 0.95 है० गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.46 है० धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया स० भाग रकबा 2.11 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स० भा० 0.74 है० जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स० भा० रकबा 0.35 है०।
5	67	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270	0.004	बनवारी, देवीलाल पुत्र बलवन्त जाति काछी पता नि० पचेर भूमिस्वामी।
6	69	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.070	0.530	कम्मोदा बेबा बलबन्त गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलबन्त रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियां बलबन्त समान भाग रकबा 0.47 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियां रोशन समान भाग हि० 0.06 जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स० भाग हि० 0.48 सुन्ती बेबा केदार विकास पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियां केदार समान भाग रकबा 0.05 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० 1.04 ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० 0.35 सरवदी पुत्री रामचरण हि० 0.26 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पिता परिमाल गया कौशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु० रामवाई बेबा परिमाल हि० 3.25 हैक्ट० सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स० भा० रकबा 3.66 है० मु० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी

						स0 भाग हि0 0.41 है0 रामसिंह पुत्र मदनू हि0 रकबा 0.95 है0 गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.46 है0 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया स0 भाग रकबा 2.11 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स0 भा0 0.74 है0 जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स0 भा0 रकबा 0.35 है0।
7	70	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	0.050	कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियां बलबंत समान भाग 8/252 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियां रोशन समान भाग हि0 1/252 जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स0 भाग हि0 10/308 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियां केदार समान भाग 1/308 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि0 4/28 किन्ती बेबा रामचरण सरवदी पुत्री रामचरण समान भाग हि0 1/28 दर भाग 1/4 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पिता परिमाल गया कौशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु0 रामवाई बेबा परिमाल हि0 8/36 मु0 सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स0 भाग हि0 1/36 दर भाग 1/4 गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.03 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 0.07 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स0 भा0 0.05 जाति गुर्जर काशी बेबा

						विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रुमाली पुत्रियां विहारी स० भा० रकबा 0.01 दर भाग 1/4 विस्सू पुत्र गोपी हि० 1/4 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
8	71	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.550	0.058	कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनावरी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियां बलबंत समान भाग रकबा 0.47 हैक्ट० बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियां रोशन समान भाग रकबा 0.06 हैक्ट० जाति काछी भूमिस्वामी, जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू रकबा 0.48 हैक्ट० सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियां केदार समान भाग रकबा 0.05 हैक्ट० भूमिस्वामी, रामको रामबाई पुत्रियां मानिक समान भाग रकबा 1.04 हैक्ट० ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक स० भाग रकबा 0.35 हैक्ट० सरवती पुत्री रामचरण हि० रकबा 0.26 हैक्ट० ठकुंरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पुत्रगण परिमाल गया कौशा कांती पुत्रियां परिमाल मु० रामवाई बेबा परिमाल स० भाग रकबा 3.25 हैक्ट० सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स० भाग रकबा 3.66 हैक्ट० भूमिस्वामी, मु० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पुत्रगण चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रुमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी समान भाग रकबा 0.41 हैक्ट० रामसिंह पुत्र मदनू हि० रकबा 0.95 हैक्ट० जाति काछी जयसिंह जगदीश पुत्रगण सुखुआ स० भा० रकबा 0.74 हैक्ट० जाति गुर्जर भूमिस्वामी, गोपी पुत्र खेमचन्द हि० रकबा 0.46 हैक्ट० मु० धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटाई पीतो

						पुत्रियांन खेमचन्द चिरोजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 2.11 हैक्ट0 काशी बेवा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियांन विहारी हि0 रकबा 0.35 हैक्ट0 जाति काछी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
9	72	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	0.280	कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग 8/252 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग हि0 1/252 जीगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसन्ती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स0 भाग हि0 10/308 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग 1/308 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि0 4/28 किन्ती बेबा रामचरण सरवदी पुत्री रामचरण समान भाग हि0 1/28 दर भाग 1/4 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पिता परिमाल गया कौशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु0 रामवाई बेबा परिमाल हि0 8/36 मु0 सावित्री बेबा चिरोजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोजी बसन्ती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोजी स0 भाग हि0 1/36 दर भाग 1/4 गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.03 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 0.07 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स0 भा0 0.05 जाति गुर्जर काशी बेवा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स0 भा0 रकबा 0.01 दर भाग 1/4 विस्सू पुत्र गोपी हि0 1/4

						जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
10	73	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	0.140	शांती बेबा बुद्धा मावासिया सुरेश रामजी प्रकाश पुत्र बुद्धा बादामी मीरा नर्मदा ममता पुत्रियां बुद्धा स० भाग जाति काछी निवासी ग्राम।
11	73/865	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.090	0.008	भौरू बेबा गोपी होतम पुत्र गोपी भारती रूमाली रेशम सुनीता फूलो पुत्रियां गोपी जाति काछी पता नि० ग्राम स० भाग भूमिस्वामी।
12	77	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.260	0.260	कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियां बलबंत समान भाग 8/252 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियां रोशन समान भाग हि० 1/252 जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स० भाग हि० 10/308 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियां केदार समान भाग 1/308 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० 4/28 किन्ती बेबा रामचरण सरवदी पुत्री रामचरण समान भाग हि० 1/28 दर भाग 1/4 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पिता परिमाल गया कौशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु० रामबाई बेबा परिमाल हि० 8/36 मु० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स० भाग हि० 1/36 दर भाग 1/4 गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.03 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 0.07 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स० भा० 0.05 जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां

						विहारी स० भा० रकबा 0.01 दर भाग 1/4 विस्सू पुत्र गोपी हि० 1/4 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
13	78	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.570	0.449	मन्दिर श्री महादेव जी का, बाबूजी का बांके ग्राम हाजा माफी देवस्थान प्रबन्धक कलेक्टर महो० मुरैना पता नि० ग्राम शासकीय पट्टेदार।
14	80/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.230	राजाराम पुत्र छीतरिया जाति खठीक पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
15	80/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.810	0.373	भल्ला पुत्र मोती जाति काछी पता नि० ग्राम पचेर भूमिस्वामी।
16	81	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.130	0.130	क्रांति बेबा परिमाल सिरमिती सुनीता पुत्रियां परिमाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
17	82/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.260	0.260	राजाराम पुत्र छीतरिया जाति खठीक पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
18	82/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.490	0.490	कमलेश पुत्र पोथी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
19	83	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.190	0.0710	रामहेत पुत्र रतनलाल जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
20	84/मिन 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.226	भैरोलाल पुत्र सोना जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
21	84/मिन 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	0.015	रामहेत पुत्र रतनलाल जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
22	86	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	0.070	म० रामहेती बेबा गिरवर, रामदयाल रामगोपाल पुत्रगण गिरवर रामचिलासी पुत्री गिरवर जाति रावत पता निवासी समान भाग भूमिस्वामी।
23	87	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420	0.420	रामदेवी बेबा गिराज कोमल राजेश पदम दिलीप पुत्रगण गिराज मोहरबाई पुष्पा कमला बबली पुत्रियां गिराज समान भाग जाति भाट पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
24	88	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.240	0.240	नर्मदा बेवा रतनलाल रामनिवास रामहेत इमरतलाल बूंदी सोनेराम पुत्रगण रतनलाल फूलबती प्रकाशी पुत्रीयां रतनलाल जाति रावत समान भाग रकबा 0.22 आरे, रामदेवी बेवा गिराज कोमल राजेश पदम दिलीप पुत्र गिराज मोहरबाई पुष्पा कमला बबली पुत्रियां गिराज रकबा 0.02 जाति भाट पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।

25	89	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	0.140	नर्मदा बेवा रतनलाल, रामनिवास रामहेत इमरतलाल बूदी सोनेराम पुत्रगण रतनलाल फुलबती प्रकाशी पुत्रियां रतनलाल जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
26	91	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.240	0.240	रामजीलाल पुत्र गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
27	92	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.510	0.364	भन्ती पुत्री भोरु, कला पुत्री हीरा समान भाग हि० 2/3 गुलबो बेवा रामरतन पूरन कोकसिंह नबलसिंह पुत्रगण रामरतन गीता अंगूरी भूरी कला पुत्री रावत स० भाग हि० 1/3 जाति गुर्जर पता नि० ग्राम।
28	93	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	0.021	रामसिंह, महाराजसिंह, मोहरसिंह आ० चिरोंजी मु० कस्तुरी बेवा चिरोंजी कटोई रामनाथी रूमाली माया पुत्रियां चिरोंजी समान भाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
29	94	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.450	0.348	रामसिंह, महाराजसिंह, मोहरसिंह आ० चिरौजी मु० कस्तुरी बेवा चिरौजी कटोई रामनाथी रूमाली माया पुत्रियां चिरांजी समान भाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू०राशा० 93
30	96	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.310	0.155	करन पुत्र बिहारी जाति काछी भाग 1/2 भल्ला अजमेर आ० मानिक भाग 2/6 समान भाग गुलबो बेवा रमेश ज्ञानसिंह ऋषिकेश पुत्रगण रमेश गायत्री सुरक्षा कृष्णा पुत्रियां रमेश समान भाग हि० 1/6 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
31	98	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.320	0.320	मु मल्लो बेवा सोना, स्वरूप, केदार, मुनीम, सीताराम, गटुआ वा० मुन्ना नाबा आ० सोना सर० मां मुल्लो खुद रामश्री प्रेमवती बालिग मुन्नी गुड्डी नाबा० पुत्रियां सोना सर० मां खुद स० भाग 1/6 परिमाल शंकर रामचरन पुत्रगण मानसिंह मुल्लो किन्ती पुत्रियां मानसिंह स० भाग 5/6 जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
32	100	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.550	0.550	करन पुत्र बिहारी जाति काछी भाग 1/2 भल्ला अजमेर आ० मानिक भाग 2/6 समान भाग गुलबो बेवा रमेश ज्ञानसिंह ऋषिकेश पुत्रगण रमेश

						गायत्री सुरक्षा कृष्णा पुत्रियां रमेश समान भाग हि० 1/6 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
33	101	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	0.011	बद्री पुत्र बिहारी जाति काछी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
34	102	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.360	0.228	बद्री पुत्र बिहारी जाति काछी पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
35	103	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380	0.380	नर्मदा बेवा रतनलाल रामनिवास रामहेत इमरतलाल बूंदी सोनेराम पुत्रगण रतनलाल फुलबती प्रकाशी पुत्रियां रतनलाल जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
36	105	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.520	0.518	करन पुत्र हरिसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
37	107	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.580	0.231	करन पुत्र हरिसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
38	108	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.500	0.500	सीता पुत्र हरिसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
39	109	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.350	0.350	सीता पुत्र हरिसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
40	110	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.250	0.250	करन पुत्र हरिसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
41	111	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.090	0.036	सियाराम परसराम आ० रामरतन मु० फूलो बेवा रामरतन दुलारी तारा पत्तो गुडडी पुत्रियांन रामरतन स० भाग 7/8 मु० दुलारी बेवा बनवारी लाखन वासुदेव आ० बनवारी लज्जा पुत्री बनवारी समान भाग हि० 1/4 पोथी करन सीता आ० हरिसिंह लच्छो काशी द्रोपति पुत्रियां हरिसिंह समान भाग हि० 6/14 रामजीलाल बिस्सू आ० गोपी मु० ल्होई बेवा गोपी बाबूली कंला रुमाली पुष्पा पुत्रियांन गोपी जाति रावत स० भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
42	112	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	0.330	रामजीलाल, बिस्सू आ० गोपी मु० ल्होई बेवा गोपी बाबुली, कला रुमाली पुष्पा पुत्रियांन गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
43	113	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.310	0.093	रामजीलाल पुत्र गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
44	114	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.030	0.722	रामजीलाल, बिस्सू आ० गोपी मु० ल्होई बेवा गोपी बाबुली, कला रुमाली पुष्पा

						पुत्रियान गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिसमी।
45	115	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200	0.027	विस्सु पुत्र गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
46	117	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.440	0.440	मिसुरी पुत्र पुन्ना भाग 40/289 जाहर सिंह पुत्र हुकमसिंह भाग 104/289 दर हि0 1/2 जाति रावत पता नि0 ग्राम रानीपुरा (खोह) भूमिस्वामी, हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुड्डी पुत्री मोतीलाल हि0 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक रामकेश मातादीन नाबा0 पुत्रगण त्रिलोक सर0 रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक समान भाग हि0 1/5 दर भाग 1/2 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
47	118	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.580	0.580	मिसुरी पुत्र पुन्ना भाग 40/289 जाहर सिंह पुत्र हुकमसिंह भाग 104/289 दर हि0 1/2 जाति रावत पता नि0 ग्राम रानीपुरा (खोह) भूमिस्वामी, हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुड्डी पुत्री मोतीलाल हि0 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक रामकेश मातादीन नाबा0 पुत्रगण त्रिलोक सर0 रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक समान भाग हि0 1/5 दर भाग 1/2 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
48	119	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.690	0.690	मिसुरी पुत्र पुन्ना भाग 40/289 जाहर सिंह पुत्र हुकमसिंह भाग 104/289 दर हि0 1/2 जाति रावत पता नि0 ग्राम रानीपुरा (खोह) भूमिस्वामी, हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुड्डी पुत्री मोतीलाल हि0 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक रामकेश मातादीन नाबा0 पुत्रगण त्रिलोक सर0 रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक समान भाग हि0 1/5 दर भाग 1/2 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
49	123	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	0.299	विस्सु पुत्र गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
50	124	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.360	0.183	अम्मेदसिंह उदयभान सिंह उदयवीरसिंह आ0 कम्मोद सिंह समान भाग जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।

51	125	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.300	0.176	मु० सावित्री देवी बेवा शारदा शरण सिंह राजकुमार सिंह अशोक सिंह राजेंद्र सिंह राजेश सिंह आत्मज शारदा शरण सिंह रामकुमारी अल्का स्नेहलता माधवी विजय पुत्रियां शारदा शरण सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
52	127	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.400	0.011	मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी का पुख्ता बांके ग्राम हाजा माफी देवस्थान प्रबन्धक कलेक्टर महो० मुरैना ओकाफ डिपार्टमेन्ट पता नि० ग्राम शासकीय पट्टादार।
53	128	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.720	0.636	ओमप्रकाश रामभजन रामकिशोर आ० मायादेवी रामवती पुत्रीयां प्रभु मु० कोशा बेबा प्रभु समान भाग जाति वाढई पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
54	129	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	0.080	अम्मेदसिंह उदयभान सिंह उदयवीरसिंह आ कम्मोद सिंह समान भाग जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
55	130	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	0.070	मु० सावित्री देवी बेवा शारदा शरण सिंह राजकुमार सिंह अशोक सिंह राजेंद्र सिंह राजेश सिंह आत्मज शारदा शरण सिंह रामकुमारी अल्का स्नेहलता माधवी विजय पुत्रियां शारदा शरण सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
56	132	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.660	0.074	कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनावरी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियां बलबंत समान भाग रकबा 0.47 हैक्ट० बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियां रोशन समान भाग रकबा 0.06 हैक्ट० जाति काछी भूमिस्वामी, जीगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसन्ती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू रकबा 0.48 हैक्ट० सुन्ती बेबा केदार विकास पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियां केदार समान भाग रकबा 0.05 हैक्ट० भूमिस्वामी, रामको

					<p>रामबाई पुत्रियांन मानिक समान भाग रकबा 1.04 हैक्ट0 ल्होई पन्नी पुत्रियांन मानिक स0 भाग रकबा 0.35 हैक्ट0 सरवती पुत्री रामचरण हि0 रकबा 0.26 हैक्ट0 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पुत्रगण परिमाल गया कौशा कांती पुत्रियांन परिमाल मु0 रामवाई बेबा परिमाल स0 भाग रकबा 3.25 हैक्ट0 सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स0 भाग रकबा 3.66 हैक्ट0 भूमिस्वामी, मु0 सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पुत्रगण चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियांन चिरोंजी समान भाग रकबा 0.41 हैक्ट0 रामसिंह पुत्र मदनू हि0 रकबा 0.95 हैक्ट0 जाति काछी जयसिंह जगदीश पुत्रगण सुखुआ स0 भा0 रकबा 0.74 हैक्ट0 जाति गुर्जर भूमिस्वामी, गोपी पुत्र खेमचन्द हि0 रकबा 0.46 हैक्ट0 मु0 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटाई पीतो पुत्रियांन खेमचन्द चिरोजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 2.11 हैक्ट0 काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियांन विहारी हि0 रकबा 0.35 हैक्ट0 जाति काछी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।</p>	
57	133	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.170	0.020	<p>कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनावरी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग रकबा 0.47 हैक्ट0 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग रकबा 0.06 हैक्ट0 जाति काछी भूमिस्वामी, जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियांन मदनू रकबा 0.48 हैक्ट0 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा</p>

					सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग रकबा 0.05 हैक्ट0 भूमिस्वामी, रामको रामबाई पुत्रियांन मानिक समान भाग रकबा 1.04 हैक्ट0 ल्होई पन्नी पुत्रियांन मानिक स0 भाग रकबा 0.35 हैक्ट0 सरवती पुत्री रामचरण हि0 रकबा 0.26 हैक्ट0 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पुत्रगण परिमाल गया कौशा कांती पुत्रियांन परिमाल मु0 रामवाई बेबा परिमाल स0 भाग रकबा 3.25 हैक्ट0 सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स0 भाग रकबा 3.66 हैक्ट0 भूमिस्वामी, मु0 सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पुत्रगण चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियांन चिरोंजी समान भाग रकबा 0.41 हैक्ट0 रामसिंह पुत्र मदनू हि0 रकबा 0.95 हैक्ट0 जाति काछी जयसिंह जगदीश पुत्रगण सुखुआ स0 भा0 रकबा 0.74 हैक्ट0 जाति गुर्जर भूमिस्वामी, गोपी पुत्र खेमचन्द हि0 रकबा 0.46 हैक्ट0 मु0 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटाई पीतो पुत्रियांन खेमचन्द चिरोजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 2.11 हैक्ट0 काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियांन विहारी हि0 रकबा 0.35 हैक्ट0 जाति काछी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।	
58	137	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.840	0.003	कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनावरी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग रकबा 0.47 हैक्ट0 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग रकबा 0.06 हैक्ट0 जाति काछी भूमिस्वामी, जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियांन मदनू रकबा 0.48 हैक्ट0 सुन्ती

					<p>बेबा केदार विकाश पंकुज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग रकबा 0.05 हैक्ट0 भूमिस्वामी, रामको रामबाई पुत्रियांन मानिक समान भाग रकबा 1.04 हैक्ट0 ल्होई पन्नी पुत्रियांन मानिक स0 भाग रकबा 0.35 हैक्ट0 सरवती पुत्री रामचरण हि0 रकबा 0.26 हैक्ट0 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पुत्रगण परिमाल गया कौशा कांती पुत्रियांन परिमाल मु0 रामवाई बेबा परिमाल स0 भाग रकबा 3.25 हैक्ट0 सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स0 भाग रकबा 3.66 हैक्ट0 भूमिस्वामी, मु0 सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पुत्रगण चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियांन चिरोंजी समान भाग रकबा 0.41 हैक्ट0 रामसिंह पुत्र मदनू हि0 रकबा 0.95 हैक्ट0 जाति काछी जयसिंह जगदीश पुत्रगण सुखुआ स0 भा0 रकबा 0.74 हैक्ट0 जाति गुर्जर भूमिस्वामी, गोपी पुत्र खेमचन्द हि0 रकबा 0.46 हैक्ट0 मु0 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटाई पीतो पुत्रियांन खेमचन्द चिरोजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 2.11 हैक्ट0 काशी बेवा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियांन विहारी हि0 रकबा 0.35 हैक्ट0 जाति काछी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।</p>	
59	157	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.800	0.365	<p>रजनी बेवा कृष्ण कुमार सचिव बा0 सत्यम नाबा0 आ0 कृष्ण कुमार सर0 मां रजनी स0 भाग जाति कायस्थ पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।</p>
60	159	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.230	<p>मु0 रामहेती बेवा गिरवर रामदयाल रामगोपाल पुत्रगण गिरवर रामविलासी पुत्री गिरवर जाति रावत स0 भाग पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।</p>
61	161	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.510	0.136	<p>रामजीलाल विस्सू आ0 गोपी मु0 ल्होई बेवा गोपी बाबूली कलां रूमाली पुष्पा</p>

						पुत्रीयांन गोपी स० भाग जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी।
62	162	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.720	0.421	नर्मदा बेवा रतनलाल रामनिवास रामहेत इमरतलाल बूंदी सोनेराम पुत्रगण रतनलाल फूलवती पुकाशी पुत्रियां रतनलाल स० भाग पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
63	165	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.450	0.271	नर्मदा बेवा रतनलाल रामनिवास रामहेत इमरतलाल बूंदी सोनेराम पुत्रगण रतनलाल फूलवती पुकाशी पुत्रियां रतनलाल स० भाग पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
64	167	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	0.140	मिसुरी पुत्र पुन्ना भाग 40/289 जाहर सिंह पुत्र हुकमसिंह भाग 104/289 दर हि० 1/2 जाति रावत पता नि० ग्राम रानीपुरा (खोह) भूमिस्वामी, हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुडडी पुत्री मोतीलाल हि० 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक रामकेश मातादीन नाबा० पुत्रगण त्रिलोक सर० रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक समान भाग हि० 1/5 दर भा० 1/2 जाति रावत नि० ग्राम।
65	169	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.550	0.158	मिसुरी पुत्र पुन्ना भाग 40/289 जाहर सिंह पुत्र हुकमसिंह भाग 104/289 दर हि० 1/2 जाति रावत पता नि० ग्राम रानीपुरा (खोह) भूमिस्वामी, हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुडडी पुत्री मोतीलाल हि० 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक रामकेश मातादीन नाबा० पुत्रगण त्रिलोक सर० रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक समान भाग हि० 1/5 दर भाग 1/2 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
66	177	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.370	0.025	हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुडडी पुत्री मोतीलाल हि० 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक बा० रामकेश मातादीन नाबा० पुत्रगण त्रिलोक सर० रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक हि० 1/5 दर जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
67	178/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.260	0.113	रघुवीर पुत्र जालिम जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।

68	178/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270		मु० रामहेती बेवा गिरवर रामदियाल रामगोपाल पुत्रगण गिरवर रामविलासी पुत्री गिरवर जाति रावत स० भाग पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
69	182	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200	0.133	मु सावित्री देवी बेवा शारदाशरणसिंह राजकुमारसिंह अशोकसिंह राजेन्द्रसिंह राजेशसिंह आत्मज शारदाशरणसिंह रामकुमारी अलका स्नेहलता माधवी विजय पुत्रियां शारदाशरणसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
70	183	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.190	0.049	उम्मेद सिंह उदयभान सिंह उदयवीर सिंह आ० कम्मोद सिंह स० भाग जाति ठाकुर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
71	279	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.240	0.004	दौजी रमेश आ० गोलन्दी सम्पति कुअरदे नुन्नी पुत्रियां गोलन्दी स० भाग 1/4 प्रभु पुत्र खेमचन्द भाग 1/3 रामजी रामसिंह माधो आ० पन्ना स० भाग 1/12 गिरवर पुत्र बल्देव भाग 1/3 जाति काछी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
72	285	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.520	0.013	बद्री पुत्र बिहारी जाति काछी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
73	289	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.260	0.006	मु० अनारकली बेवा हाकिमसिंह जय सिंह राजभान सिंह राजेन्द्र सिंह आ० हाकिमसिंह रेनू पुत्र हाकिमसिंह जाति ठाकुर पता नि० ग्राम स० भाग भूमिस्वामी।
74	291	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.042	मु सावित्री देवी बेवा शारदाशरणसिंह राजकुमारसिंह अशोकसिंह राजेन्द्रसिंह राजेशसिंह आत्मज शारदाशरणसिंह रामकुमारी अलका स्नेहलता माधवी विजय पुत्रियां शारदाशरणसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
75	293	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	0.140	मीना पत्नि बैजनाथ हि० 1/4 भैरोलाल पुत्र सोना हि० 3/4 जाति नाई नि० ग्राम भूमिस्वामी।
76	294	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.260	0.213	मु. अनारकली बेवा हाकिमसिंह जयसिंह राजभानसिंह राजेन्द्रसिंह आ० हाकिमसिंह रेनू पुत्री हाकिमसिंह जाति ठाकुर स० भाग नि० ग्राम।
77	295	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.720	0.018	मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी का पुख्ता

धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधि नयम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. 02-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2018-897

मुरैना दिनांक 21 जनवरी 2020

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम- पहाडी प0ह0क0- 18 .रा0नि0 वृत्-03 तहसील -बानमौर उपखण्ड- बानमौर जिला-मुरैना में कुल 4.012 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- पहाडी प0ह0क0-18 .रा0नि0 वृत्-.03. तहसील- बानमौर उपखण्ड- बानमौर जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील बानमौर
ग. ग्राम पहाडी
घ. लगभग क्षेत्रफल 4.012 हेक्टेयर

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	431	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.031	पंजाबसिंह उर्फ शिवराम, पूरनसिंह रामहेत पिता पीतमसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
2	432	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.027	पंजाबसिंह उर्फ शिवराम, पूरनसिंह रामहेत पिता पीतमसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
3	435	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.005	हाकिमसिंह पुत्र हरीराम सावो पुत्री हरीराम जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी जण्डेल कप्तान राजगिरि महेश पिता हरीगिरि कमला नारायणी पुत्रियां हरिगिरि समान 6/16 मुकेश वनिया विनोद पि. केशव समान. 1/16 शीला वेवा पूरन हि. 1/16 दर हि. 1/2 फूलो बेवा सुन्ती हि. 1/2 जाति गुसाई पता निवासी ग्राम अधिपत्य कृषक
4	436	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.051	हाकिमसिंह पुत्र हरीराम सावो पुत्री हरीराम जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी जण्डेल कप्तान राजगिरि महेश पिता हरीगिरि कमला नारायणी पुत्रियां हरिगिरि

					समान 6/16 मुकेश वनिया विनोद पि. केशव समान. 1/16 शीला वेदू पूरुष हि. 1/16 दर हि. 1/2 फूलो बेवा सुन्ती हि. 1/2 जाति गुसाई पता निवासी ग्राम अधिपत्य कृषक
5	439	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/4 केदार रघुनाथ पि. हीरासिंह समानभाग 1/2 रामनिवास,मानसिंह विन्टन मुकेश दिलीप पुत्रगण छोटा कमला वेवा छोटा ममता सुनीता पुत्रीया छोटा समान भाग 1/4 भूमिस्वामी भोगीराम पि. चक्रपान जाति गुं. ठा. अधिपत्य कृषक
6	440	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.058	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ पि. हीरासिंह 1/3 समान रामनिवास,मानसिंह विन्टन मुकेश दिलीप पुत्रगण छोटा कमला वेवा छोटा ममता सुनीता पुत्रीया छोटा समान भाग 1/6 रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 समान भाग जाति गुं.ठा. निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7	441	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ पि. हीरासिंह 1/3 समान रामनिवास,मानसिंह विन्टन मुकेश दिलीप पुत्रगण छोटा कमला वेवा छोटा ममता सुनीता पुत्रीया छोटा समान भाग 1/6 रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 समान भाग जाति गुं.ठा. निवासी ग्राम भूमि स्वामी
8	442	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार

					रघुनाथ पि. हीरासिंह 1/3 समान रामनिवास,मानसिंह विन्टन मुकेश दिलीप पुत्रगण छोटा कमला वेवा छोटा ममता सुनीता पुत्रीया छोटा समान भाग 1/6 रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 समान भाग जाति गुं.टा. निवासी ग्राम भूमि स्वामी
9	443	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.002	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ पि. हीरासिंह 1/3 समान रामनिवास,मानसिंह विन्टन मुकेश दिलीप पुत्रगण छोटा कमला वेवा छोटा ममता सुनीता पुत्रीया छोटा समान भाग 1/6 रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 समान भाग जाति गुं.टा. निवासी ग्राम भूमि स्वामी
10	459	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ पि. हीरासिंह 1/3 समान रामनिवास,मानसिंह विन्टन मुकेश दिलीप पुत्रगण छोटा कमला वेवा छोटा ममता सुनीता पुत्रीया छोटा समान भाग 1/6 रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 समान भाग जाति गुं.टा. निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11	461	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.061	कुशमा पप्पो रूमाली पुत्रीयां रामस्वरूप समान भाग 1/2 कम्पोटर पुत्र बहादुरा भाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
12	471	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	कुशमा पप्पो रूमाली पुत्रीयां रामस्वरूप समान भाग 1/2 कम्पोटर पुत्र बहादुरा भाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।

13	472	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.024	बदना, नवलसिंह, जगन्नाथ पिता हरीविलास रामप्यारी पुत्री हरिविलास जाति गूठा पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
14	473	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.048	बलिराम, माताप्रसाद, रामबीर पि. हरिमोहन समान भाग 3/7 शान्ती रामवती सिद्धारबाई अंगूरी पुत्रियां हरिमोहन समान भाग 1/14 दर भाग 1/2 सुन्दर हेमसिंह नरोत्तम पि. धर्मपाल साबो कैलाशी पुत्रियां धर्मपाल समान भाग 5/14 रामदुलाई बेबा केशव, वकील, करतार, अजय, मनोज पुत्रगण केशव असरफी पुत्री केशव समान भाग 1/14 आशाराम पि. राजाराम शीला मुन्नेश कौमेश कविता पुत्रियां राजाराम स.भा. 1/14 दर भाग 1/2 जाति गूठा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
15	474	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	आशाराम पुत्र राजाराम शीला मुन्नेश कौमेश कविता पुत्री राजाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
16	475	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.081	बलिराम, माताप्रसाद, रामबीर पि. हरिमोहन समान भाग 3/7 शान्ती रामवती सिद्धारबाई अंगूरी पुत्रियां हरिमोहन समान भाग 1/14 दर भाग 1/2 सुन्दर हेमसिंह नरोत्तम पि. धर्मपाल साबो कैलाशी पुत्रियां धर्मपाल समान भाग 5/14 रामदुलाई बेबा केशव, वकील, करतार, अजय, मनोज पुत्रगण केशव असरफी पुत्री केशव समान भाग 1/14 आशाराम पि. राजाराम शीला मुन्नेश कौमेश कविता पुत्रियां राजाराम स.भा. 1/14 दर भाग 1/2 जाति गूठा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
17	581	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.082	संजू पुत्र वासूदेव जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
18	582	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	सुनील, किशना ना.वा.पि रामहेत गुडिया नावा. पुत्री रामहेत सर माँ. भगवती बेबा रामहेत समान भाग 1/8 बन्टी बासदेव नरेश पि. रोशन गुडडी सरोज सुनीता पुत्रीयां रोशन प्रेमाबाई बेबा रोशन समान भाग 7/8 दर भाग 1/2 कल्ला भूरा प्रमोद पप्पू पि. रामभरोषी समान भाग 1/2 जाति बैरागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
19	585/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115	बिजेन्द्रसिंह राजकिशोर भारत रामनारायण प्रतिसिंह पि. सुल्तानसिंह प्रागो बेबा

					सुल्तानसिंह गीता कम्पूरी पुत्रियां सुल्तानसिंह स.भा. 1/2 शोभाराम नत्थी पुत्रगण सूबालाल ठकुरो पुत्री सूबालाल स0भाग 3/8 मुन्नी बेवा कल्ली भोपा उर्फ भूपेन्द्र खैरू विष्णु पि. कल्ली स.भा 1/8 दर भाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
20	585/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		बिजेन्द्रसिंह राजकिशोर भारत रामनारायण पुत्तसिंह पि. सुल्तानसिंह प्रागो बेवा सुल्तानसिंह गीता कम्पूरी पुत्रियां सुल्तानसिंह स.भा. 1/2 शोभाराम नत्थी पुत्रगण सूबालाल ठकुरो पुत्री सूबालाल स0भाग 3/8 मुन्नी बेवा कल्ली भोपा उर्फ भूपेन्द्र खैरू विष्णु पि. कल्ली स.भा 1/8 दर भाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
21	705	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	केशवसिंह हि. 0.178/.763 कलियानसिंह हि. रकवा 334/.763 रानाजीत हि रकवा 251/.763 पुत्रगण औतारसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
22	706	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.081	दशरथ माधो कप्तानसिंह नवलसिंह जवरसिंह पि. कुढेरसिंह आनन्दी बेवा विशाल समान भाग 6/7 बीरेन्द्र बैजनाथ रामधन पि. रामस्वरूप रामो बेवा रामस्वरूप गीता पुत्रीरामस्वरूप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान 1/7 भाग भूमिस्वामी
23	720	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.082	हाकिमसिंह पुत्र हरीराम सावो पुत्री हरीराम जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
24	1994	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.083	रामनाथ पिता पीतमसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
25	1995	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.031	कलियान पुत्र होतम साधो सनेही पुत्री होतम जावित्री बेवा होतम समान भाग 1/2 भूमि स्वामी आशाराम लज्जाराम सियाराम बैजनाथ पिता माधौसिंह समान भाग 24/50 बालाशी पुत्री माधौसिंह भाग 1/50 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
26	1996	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	जसवंत भूरा कृष्णा पिता मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्री मूंगाराम 1/2 जीवाराम पुत्र मूलाराम 1/2 जाति गू.ठा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

27	1998	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.042	मु. कलावती बेवा सोनेराम 1/2 जसमंत भूरासिंह कृष्णा पिता मूंगाराम भूरी, रामा मीरा पुत्री मूंगाराम जाति गूठा. पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी
28	2001	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	केदार जनकसिंह पि खुट्टी समान 1/2 जबरसिंह कल्यान नरेन्द्र पि. देबीसिंह रामबती मुन्नी लाली पुत्रियां देबीसिंह समान 1/2 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
29	2006	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.005	बंशी पुत्र मूला जाति मेहतर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।
30	2022	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.027	माताप्रसाद उदयबीर बीरो मलखान पि. बालमकुन्द जमुनी पुत्री बालमकुन्द समान भाग 1/12 मोहरसिंह पुत्र साहवसिंह लक्ष्मी पुत्री साहवसिंह समान भाग 2/12 दिलीप रूपसिंह जयभान उधौ पिता रामनरेश रचना मधु पुत्रियां रामनरेश मीरा बेबा रामनरेश समान भाग 1/12 दर भाग 1/3 रामहेत कृष्णा हरेन्द्र पिता रामसरूप मीरा पुत्री रामसरूप समान भाग 4/15 मु. कोमेश वेवा देवेन्द्र पंकज नावा पुत्र देवेन्द्र जाति गुर्जर पता सर मा.खुद समान भाग 1/15 दर भाग 1/3 कमलाबाई वेवा केदारसिंह परिमाल सूरजभान रामलखन रामेश्वर पुत्रगण केदारसिंह सुनीता पुत्री केदारसिंह समान भाग 1/3 निवासी ग्राम नारायण पंत्र कलुआ जाति ब्र. पता निवासी, ग्राम अधिपत्य कुषक रकवा 0.575.
31	2023 2024	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.127	राजाराम पुत्र कदमसिंह 1/6 जितेन्द्र, सुरेश, लल्ला, तहसीला, अल्लो पुत्रगण विजय सिंह, गुडडी, सीमा, पिकी पुत्रिया विजय सिंह कमला बेबा विजय सिंह समान भाग 1/6 पंजाबसिंह उर्फ शिवराम पूरन रामहेत पुत्र पीतम लक्षो पुत्री पीतम समान 1/3 रविन्द्र लाखन पि. कोकसिंह समान भाग 1/4 कोमेश मिथलेश पुत्रियां कोकसिंह समान भाग 1/12 दर भाग 1/3 जाति गू ठा. निवासी ग्राम भूमि स्वामी
32	2025/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	रामनाथ पिता पीतमसिंह जाति गू ठा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

33	2026/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.044	सुन्दरसिंह पिता रामसिंह जाति गु0ठा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
34	2026/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.047	मोहकमसिंह पुत्र रमेशसिंह नि. मेला ग्राउण्ड दुल्लपुर ग्वालियर जाति गुर्जर भूमि स्वामी
35	2027	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.243	जीवाराम पुत्र मूलाराम 0.559 कलावती वेबा सोनेराम रकवा 0.248 जसवंत भूरा कृष्णा पिता मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्रियां मूंगाराम समान भाग 0.249 बेजो पुत्री देवी सिंह रकवा 0.062 जाति गु0ठा0 पता नि0. ग्राम भूमि स्वामी
36	2100/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.196	रामवरनसिंह पु नवलसिंह जाति गू ठा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामि
37	2101	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.055	रामवरनसिंह पु नवलसिंह जाति गू ठा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामि
38	2102	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.041	सोनू उर्फ उर्मिला बेबा श्री निवास दीपेन्द्र जीतेन्द्र नावा पि श्री निवास ज्योति नावा पुत्री श्री निवास सर माँ खुद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
39	2115/1 मिन-1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		राजाराम पुत्र कदमसिंह जाति गू0 ठा0 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
40	2115/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.537	जसमंत सियाराम पिता माधौसिंह फूलो पुत्री माधौसिंह समान भाग 1/2 सिरदार चौबे सिंह रामखिलाडी पिता पन्नू रामकली रामप्रकाशी रामवेटी शीला संतो पुत्रियां पन्नू स0भा0 1/2 जाति गू0ठा0 पता सा0 देह भूमिस्वामी
41	2116/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.075	भारत पिता सरनाम रकवा 126/1862 राकेश अल्ली पिता सरनाम रामा पुत्री सरनाम समान भाग 1396/1862 सन्तोदेवी पत्नी राजाराम कमला पत्नी विजयसिंह समान भाग 340/1862 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
42	2116/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	प्रकाश महेन्द्र पिता हजारी गुडडी पुत्री हजारी जाति गू0ठा0 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
43	2116/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	वकीला पुत्र हजारी साबो वेवा हजारी सिया पुत्री हजारी समान भाग 1524/1694 सन्तो देवी पत्नी राजाराम कमला पत्नी विजय सिंह समान भाग 170/1694 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
44	2168	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.119	राजाराम पुत्र कदमसिंह 1/4 जितेन्द्र,

					सुरेश, लल्ला, तहसीला, अल्लो पुत्रगण विजय सिंह, गुडड़ी, सीमा, पिकी पुत्रिया विजय सिंह कमला बेबा विजय सिंह समान भाग 1/4 रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/2 भूमि स्वामी
45	2173	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 केदार रघुनाथ पि. हीरासिंह 2/6 रामनिवास,मानसिंह विन्टन मुकेश दिलीप पुत्रगण छोटा कमला वेवा छोटा ममता सुनीता पुत्रीया छोटा समान भाग 1/6 रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी
46	2175	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ पि. हीरासिंह 2/6 रामनिवास,मानसिंह विन्टन मुकेश दिलीप पुत्रगण छोटा कमला वेवा छोटा ममता सुनीता पुत्रीया छोटा समान भाग 1/6 रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी
47	2176	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.102	राजाराम पुत्र कदमसिंह 1/4 जितेन्द्र, सुरेश, लल्ला, तहसीला, अल्लो पुत्रगण विजय सिंह, गुडडी, सीमा, पिकी पुत्रिया विजय सिंह कमला बेबा विजय सिंह समान भाग 1/4 रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6

					समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ पि. हीरासिंह 2/6 रामनिवास,मानसिंह विन्टन मुकेश दिलीप पुत्रगण छोटा कमला वेवा छोटा ममता सुनीता पुत्रीया छोटा समान भाग 1/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/2 भूमि स्वामी
48	2177	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.121	राजाराम पुत्र कदमसिंह 1/6 जितेन्द्र, सुरेश, लल्ला, तहसीला, अल्लो पुत्रगण विजय सिंह, गुडडी, सीमा, पिकी पुत्रिया विजय सिंह कमला बेबा विजय सिंह समान भाग 1/6 रविन्द्र लाखन पि. कोकसिंह समान 1/4 कोमेश मिथलेश पि. कोकसिंह समान भाग 1/12 रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता गधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ पुत्र हीरासिंह 2/6 समान रामनिवास,मानसिंह विन्टन मुकेश दिलीप पुत्रगण छोटा कमला वेवा छोटा ममता सुनीता पुत्रीया छोटा समान भाग 1/6 रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पुत्र. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पुत्रियां आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/3 जाति गुर्जर भूमि स्वामी
49	2179	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.006	लाखन रविन्द्र पि. कोकसिंह समान भाग 3/5 कोमेश मिथलेश पुत्रियां कोकसिंह समान भाग 1/5 कमला पुत्री भीकमसिंह भाग 1/5 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.56
50	2180	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.156	राजाराम पुत्र कदमसिंह 1/6 जितेन्द्र, सुरेश, लल्ला, तहसीला, अल्लो पुत्रगण विजय सिंह, गुडडी, सीमा, पिकी पुत्रिया विजय सिंह कमला बेबा विजय सिंह समान भाग 1/6 रविन्द्र लाखन पि. कोकसिंह समान 1/4 कोमेश मिथलेश पि. कोकसिंह समान भाग 1/12 रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा

					जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार पुनाधर पुत्र हीरासिंह 2/6 समान रामनिवास, मानसिंह विन्टन मुकेश दिलीप पुत्रगण छोटा कमला वेवा छोटा ममता सुनीता पुत्रीया छोटा समान भाग 1/6 रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पुत्र रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पुत्रियां आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/3 जाति गुर्जर भूमि स्वामी
51	2181	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	जीवाराम पुत्र मूलाराम 0.559 कलावती वेवा सोनेराम रकवा 0.248 जसवंत भूरा कृष्णा पिता मंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्रियां मंगाराम समान भाग 0.249 बेजो पुत्री देवी सिंह रकवा 0.062 जाति गुठठा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
52	2183/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.056	जसवन्तसिंह पुत्र मंगाराम जाति गू ठा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
53	2183/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.055	जसवन्तसिंह भूरा, कृष्णा पुत्र मंगाराम जाति गू ठा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
54	2184	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.068	पातीराम पिता शंकरसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
55	2020	भूमिस्वामी	मंदिर	0.039	मठ श्री महादेवजी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर महोदय जिला मुरैना
56	2182	भूमिस्वामी	मंदिर	0.114	मठ श्री महादेव जी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर महो. मुरैना भूमि स्वामी
57	2190	भूमिस्वामी	मंदिर	0.013	मठ श्री महादेव जी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर महो. मुरैना भूमि स्वामी
कुल किता	57			4.012	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाने या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 14-अ-82-2018-19-मौजा छिन्दी-277

बैतूल, दिनांक 8 जनवरी 2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा हे.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	छिन्दी	2.187	छिन्दी लघु जलाशय (नहर कार्य)

अनुसूची - 2

अ.क.	खरारा नंबर	रकबा हे0 में	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4	5
1	529/1	1.153	0.101	नान्हू बे. जियालाल पंखुड़िया मुन्नी, जुरसो पिता जियालाल, उन्नो बे. बिकट, प्रभु छोटे प्रहलाद मुन्नी व. बिकट सरस्वती मुन्नी पिता बिकट रघुवंशी सा. देह.
2	229/3	0.202	0.065	जैराम व. गोलकसिंह सा. देह.
3	229/1	2.131	0.202	सुकरत बे. सूरत, शंकरसिंह, जसवंतसिंह व. सूरत, शंकरिया, सुखवन्ती पिता सूरत, करणसिंह व. जगतसिंह, गुलमस बे. टंटी कोमल जौ. सुमेरसिंह अमरसिंह सुकलु व. कसन. कल्लु व. तीरथ, कमली, लज्जा पिता तिरथ झनकलाल व, बदनसिंह अबलू रामा लालसिंह ओमप्रकाश व. जगबीर, सरस्वती चम्पा सुनिता पिता जगबीर सतरूपा बे. गोरू पार्वती, कृष्णा, कोमल पिता गोरू, भीमराव व. टंटी सा. देह.

4	229/4	0.301	0.032	सुकलू व. कसन सा. देह.
5	228/1	0.345	0.178	रघुनन्दन सुखनन्दन व. उमकी, चम्पा पिता उमकी रघुवंशी सा देह.
6	227	2.270	0.162	धनपाल मन्नु व. सोमलाल, उन्नतिया पिता सोमलाल, विल्लो बे. सोमलाल तन्नी बाई बे. रामदयाल, मन्नु व. सोमलाल उकतिया पिता सोमलाल विकतिया बे. सोमलाल धनलाल बे. भददू सा. देह.
7	229/12	0.485	0.057	रमेश उर्फ रामा व. गोलक सरजो चन्दा पिता गोलक सा देह.
8	229/5	0.610	0.113	लालसिंह धर्मराजसिंह रमेश व. खड़कसिंह सा. देह.
9	209	1.019	0.162	धनपाल मन्नु व. सोमलाल, उन्नतिया पिता सोमलाल, विकलो बे. सोमलाल धनलाल व. भददू हरचन्द व. नत्थु ग्यानी व. गोडे तन्नी बाई बे. रामदयाल सा. देह.
10	210	0.032	0.016	सोनम ना. बा. पिता दलबीर वली मामा राधेश्याम सा. देह.
11	212	0.081	0.016	हजारीसिंह, गुलजारसिंह, जसवंतसिंह व. बल्लूसिंह जसवनिया पिता बल्लूसिंह रामभरोसे व. रामदास नन्दू व. रामदास रामकलिया पिता रामदास, सुल्को सरजू पिता रामदास रतनिया बे. रामदास कैलो बे. मटरू चम्पी पिता मटरू पंजाब व. सूरत मोहनसिंह गोलनसिंह, कुसुमलाल, रोशनलाल व. मंजरासिंह रमको पिता मंजरासिंह सरबतिया पिता मंजरासिंह रघुवंशी सा. देह.
12	198	0.243	0.080	रामभरोसे व. रामदास रामकलिया सुल्का सरजू पिता रामदास जसवनिया बे. नन्दकिशोर सुनिल व. नन्दकिशोर सरिता रीता पिता नन्दकिशोर रघुवंशी सा देह.
13	193/3	0.850	0.105	गोलनसिंह व. मंजीरा सा. देह.

14	192/2	1.315	0.076	नारायणसिंह, महतापसिंह, इन्दलसिंह व. यदुसिंह गीता पिता यदुसिंह सा. देह.
15	118	0.676	0.130	अवलसिंह रामकिशोर लालसिंह ओमप्रकाश व. जगवीर चम्पा सरस्वती पिता जगवीर अवलसिंह रामकिशोर लालसिंह ओमप्रकाश व. जगवीर बुटनीया बे. जगवीरसिंह सा. देह.
16	119	0.567	0.121	धनपाल मन्नु व. सोमलाल, उन्नतिया पिता सोमलाल, विल्लो बे. सोमलाल तन्नीबाई बे. रामदयाल, उकतिया पिता सोमलाल विकतिया बे. सोमलाल धनलाल बे. भद्रू सा. देह.
17	120	1.740	0.154	धनपाल मन्नु व. सोमलाल, उन्नतिया पिता सोमलाल, बिकलो बे. सोमलाल, राधेश्याम, मधुरसिंह, गौतमसिंह, राजेशसिंह, हरिशंकर, गोपालसिंह व. रामदयाल तन्नीबाई बे. रामदयाल सोनम ना. बा. पिता दलवीर वली मामा राधेश्याम इन्द्रे व. धनलाल गाड़ो बे. चैनु उर्फ चैनसिंह भैयालाल उर्फ इन्द्रेसिंह नन्दुसिंह अशोक राजेश उर्फ अज्जु व. चैनु उर्फ चैनसिंह इन्द्रा, भूरी पिता चैनु उर्फ चैनसिंह सा. देह.
18	133	0.121	0.073	धनपाल मन्नु व. सोमलाल, उन्नतिया पिता सोमलाल, विकलो बे. सोमलाल, धनलाल राधेश्याम, मधुरसिंह, गौतमसिंह, राजेशसिंह, हरिशंकर, गोपाल व. रामदयाल तन्नीबाई बे. रामदयाल, सोनम ना. बा. पिता दलबीर वली मामा राधेश्याम सा. देह.
19	132	1.052	0.170	धनलाल व. भद्रू सा. देह.
20	192/1	1.319	0.065	इमरत व. हरचन्द्र सा. देह.
21	211/1	0.100	0.028	गोलनसिंह व. मंजीरा सा. देह
22	211/2	0.074	0.032	रोशनलाल व. मंजरा सा. देह.
23	217	0.242	0.049	रघुनंदन सुखनंदन व. डमकी सा. देह.
	23	16.928	2.187	महायोग

(2)- चूंकि छिन्दी लघु जलाशय योजना के नहर कार्य, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 37-अ-82-19-20-भू-अर्जन-604

सागर, दिनांक 15 जनवरी 2020

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को निवारीकला जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। परियोजना के निर्माण से लगभग 950 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारीकला जलाशय
- (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
- तहसील : कैसली
- ग्राम : कैकरा
4. पट.ह.नं.- : 48
- अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 16.38 हे.
- :: अनुसूची-1 ::

बांध निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि-

सं० क्र०	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वमित्व का अधिकार	खसरा नं०	कुल रकवा (हेक्ट.में)	अर्जित रकवा (हेक्ट.में०)	रिमार्क
1	बेटीबाईपुत्री कुन्दन पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	292 / 1 मे से	0.25	0.25	
2	घनश्यामवल्लरम्मू पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	292 / 2	1.74		
3	खेमचंद पिता कोमल पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	292 / 3	2.02		
4	चूरामन पिता रम्मू पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	292 / 4	0.20		
5	चूरामन पिता रम्मू पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	292 / 5	0.28		
6	कैलाश पिता नन्ना पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	291 / 2 मे से	1.83	0.21	
7	कैलाश पिता नन्ना पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	291 / 3	0.80	0.17	

		2.					
				मे से			
8	संजीव कुमार,संदीप कुमार पिता सीताराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	291 / 1 मे से	2.62	1.67		
9	संजीव कुमार,संदीप कुमार पिता सीताराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	290 / 1	0.14	0.14		
10	कैलाश पिता नन्ना पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	290 / 2	0.14	0.14		
11	रंजीत अखलेश पिता प्रयाग पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	300	0.36	0.07		
12	राधारानी जौजेगनेशफौजदार पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	301 मे से	0.08	0.03		
13	राधारानी जौजेगनेशफौजदार पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	302 मे से	1.22	0.43		
14	बब्बुफुल्लू पिता बिजईरमेश सुरेश बबलू पिता जगतसींग पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	304 मे से	4.20	3.10		
15	बब्बू पिता विजई पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	305 मे से	2.06	1.24		
16	पूजापुत्री सुरेश पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	315 / 1मे से	0.23			
17	संजय पिता गनेशप्रसाद पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	315 / 2 मे से	3.48	5.33		
18	दिनेश कुमार पिता गौरीशंकर पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	315 / 3 मे से	4.00			
19	सुरेश पिता गौरीशंकर पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	313 मे से	1.28	0.56		
20	फूलरानीजौजेरामेश्वर पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	312 / 1 मे से	1.98	0.53		
21		भूमिस्वामी	312 / 3	0.30	0.30		
22	चन्द्ररानी पति खिलान पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	312 / 2 मे से	1.18	1.06		

23	श्रीदेव खेरापति पूर्वी मढिया सहजपुर, मुह. सहागरानीजौजेजागेश्वर पता सा.सहजपुर	भूमिस्वामी	312/5	0.80	0.80	
24	कैलाश पिता नन्ना पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	312/4	0.29	0.29	
25	रघुराज पिता भगुन्ती पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	310 में से	3.69	0.06	
	योग:-	कुल किता -25		35.17	16.38	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 38-अ-82-19-20-भू-अर्जन-603

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को निवारीकला जलाशय योजना के क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 950 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	निवारी कलों जलाशय योजना
(2)	भूमि का विवरण	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	केसली
	3. ग्राम	:	हजपुर
	4. पट.ह.नं.-	:	42
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	0.42

:: अनुसूची-1 ::

सं0कं0	भूमि स्वामी का विवरण	स्वामित्व का अधिकार	खसरा नं0	कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित रकबा (हे0 में)	रिमाक
1	त्रिभुवनलाल बल्द अयोध्याप्रसाद जाति खरे पता सा.देह	भूमि स्वामी	226/4	2.22	0.03	
2	कल्पनाबाई जोजे त्रिभुवनलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	226/3	1.98	0.01	
3	मुन्ना बल्द नना पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	234/2	1.06	0.38	
	योग:-		कुल किता -3	5.26	0.42	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 39-अ-82-19-20-भू-अर्जन-605

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वाणित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को निवारीकला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 950 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारीकला जलाशय
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : कसली
 3. ग्राम : कुकरयाउ
 4. पट.ह.नं.- : 53
 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 176 हे.

:: अनुसूची-1 ::

नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि-

सं0कं0	भूमि स्वामी का विवरण	स्वमि त्व का अधिकार	खसरा नं0	कुल रकवा (हे0 में)	अर्जित रकवा (हे0में0)	रिमाक
1	कुदरु बल्द कन्छेदी झुन्ता बेवा कन्छेदी पता सा. सहजपुर	भूमि स्वामी	96	3.18	0.04	
2	कुदरु पिता कन्छेदी पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	97	2.44	0.04	
3	कन्छेदी बल्द मोहन पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	98/1	1.24	0.18	
4	धनसींग बल्द मोहनलाल पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	98/2	1.23		
5	वालमुकुन्द बल्द भगवानदास पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100	2.10	0.22	
6	जागेश्वर बल्द वालमुकुन्द पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101	0.40	0.06	
7	हुकम बल्द बृजलाल पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	103/1	0.04	0.30	
8	धनसींग बल्द जगदीश पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	103/2	1.83		

2.	9	कुदऊ बल्द कन्छेदी झुन्ता बेवा कन्छेदी पता सा. सहजपुर	भूमि स्वामी	107	0.66	0.07	
	10	मिहरवान बल्द परमलाल पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90/1	1.84	0.56	
	11	मोहन बल्द परमलाल पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90/2	1.36		
	12	अजय कुमार बल्द नरेन्द्रकुमार पता सा. महाराजपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	62/1	1.73	0.10	
	13	विपनेश कुमार बल्द वीरेन्द्र कुमार पता सा. सहजपुर	भूमि स्वामी	62/2	1.21		
	14	मनीश कुमार बल्द नरेन्द्रकुमार पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	62/3	0.26		
	15	राकेश कुमार बल्द मुलामचन्द पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	63	1.75	0.18	
		योग:-		कुल किता -15	21.27	1.75	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 40-अ-82-19-20-भू-अर्जन-602

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग सभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को निवासीकला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 950हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : निवासीकला जलाशय
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 तहसील : कसली
 ग्राम : कुहली
 4. पट.ह.नं.- : 54
 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.30 हे.

:: अनुसूची-1 ::

सं0क्रं0	भूमि स्वामी का विवरण	स्वामित्व का अधिकार	खसरा नं0	कुल रकवा (हे0 में)	अर्जित रकवा (हे0में0)	रिमांक
1	धरमसींग बल्द दुल्लीचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/1	1.00	0.30	
2	नरान सींग बल्द साहब सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/2/1	1.00		
3	नरान सींग बल्द साहब सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/2/2	0.37		
4	हल्केवीर बल्द रामदास पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/3	1.37		
5	कुन्दन बल्द दुलीचंदजमना पति दुलीचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/4	1.38		
6	सीताराम बल्द हीरालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/5	1.38		
7	ललतावाईदमयंतीबाईपुत्री गुल्लीकलू राधे बक्तापंचम पिता कुन्दनप्रेमवाईश्रीवाईपुत्री कुन्दनरामजीगुडू पिता देवी जमुनियावारीवैवा देवी पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	22	1.95	0.03	

8	ललतावाईदमयंतीबाईपुत्री गुल्लीकलू राधे बक्तापंचम पिता कुन्दनप्रेमवाईश्रीवाईपुत्री कुन्दनरामजीगुड्डू पिता देवी जमुनियावारीवैवा देवी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21	0.10	0.01
9	बिहारीवल्लकरनसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20	0.14	0.06
10	बिहारीवल्लकरनसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19	0.70	0.01
11	बिहारीवल्लकरनसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	41	0.64	0.12
12	राजकुमार धरमू पिताबैजनाथभागबाईमल्लीबाईपुत्री बैजनाथसुमतरानीबेवाबैजनाथ भूमि स्वामी गुलाबरानी बेवामोतीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39	1.30	0.28
13	राजकुमार धरमू पिताबैजनाथभागबाईमल्लीबाईपुत्री बैजनाथसुमतरानीबेवाबैजनाथ भूमि स्वामी गुलाबरानी बेवामोतीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38	0.36	0.09
योग:-			कुल किता -13	11.69	0.90

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 41-अ-82-19-20-भू-अर्जन-601

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को निवारीकला जलाशय योजना के डूब क्षेत्र (116.54 हे0) नहर निर्माण (1.27 हे0) कुल रकवा (117.81 हे0) हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। परियोजना के निर्माण से लगभग 950 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारीकला जलाशय
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : कसली
 3. ग्राम : निवारी कला
 4. पट.ह.नं.- : 53
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 117.81 हे.

:: अनुसूची-1 ::

बांध निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि-

सं0 क्र0	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वमित्व का अधिकार	खसरा नं0	कुल रकवा (हेक्ट.में)	अर्जित रकवा (हेक्ट.में0)	रिमांक
1	सुरेन्द्रसींग, देवेन्द्रसींग शैलेन्द्रसींग पिता गुलाबसींग मायाबाई वेवा गुलाबसींग पता सा.इटारसी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	73 मे से	6.31	0.11	
2	संतोषकुमार पिता गुलाबचंद पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	76/1 मे से	1.29	4.95	0.13 हे0 नहर का
3	मुन्नालाल पिता गुलाबचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	76/2	0.97		
4	बसंत कुमार पिता गुलाबचंद पता निवासी ग्राम	भूमिस्वामी	76/3	1.29		
5	अजितकुमार पिता गुलाबचंद पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	76/4	1.29		
6	हुकमचंद पिता गुलाबचंद पता निवासी ग्राम	भूमिस्वामी	76/5	1.29		

7	मुन्नालाल पिता गुलाबचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	96	0.32	0.32
8	विनोद कुमार बल्द फूलचंद पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	97 मे से	7.69	5.38
9	रघुवीरसींग बल्द नारायणसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	108/1मे से	0.66	1.22
10	श्यामरानी पुत्री किशोरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	108/2 मे से	1.60	
11	हुकुमचंद पिता सरजू पटैल पता सा. जबलपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	109/1 मे से	1.60	2.41
12	तेजबल बल्द सुलतान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	109/2 मे से	1.59	
13	हरदयाल बल्द सुलतान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	109/3 मे से	1.59	
14	खलकसींग बल्द जगन्नाथसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	110/1	2.02	2.02
15	रामसींग बल्द जगन्नाथसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	110/2	2.75	2.75
16	भूपेन्द्रसिंह पिता कन्छेदी जाति राजपूत पता निवासी ग्राम	भूमिस्वामी	110/3	0.40	0.40
17	त्रिबेणी जोजे जगन्नाथसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	111	1.09	1.09
18	निर्मल बल्द मल्थू पता सा.देह भूदान भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	113	0.89	0.89
19	गोविन्दसींग बल्द परवतसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	114/1मे से	3.51	0.20
20	राजकुमार बल्द गोविन्दसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	114/2 मे से	2.00	
21	जितेन्द्रकुमार बल्द गोविन्दसिंग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	114/3 मे से	2.00	
22	मूरतसींग बल्द गुवंदी गौंड पता सा. पीपला तह. देवरी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	41/1	0.03	0.03
23	मूरतसींग बल्द गुवंदी गौंड पता सा. पीपला तह. देवरी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	41/2	0.03	0.03

24	मूरतसीग बल्द गुवंदी गौंड पता सा. पीपला तह. देवरी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	40	0.07	0.07	
25	सोबरनसीग बल्द गन्धर्वसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	43/1	2.14	2.29	
26	अमित ना.वा. बल्द वलि राजेश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	43/2	1.40		
27	अरविन्दसीग बल्द कमलसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	44/1	2.02	2.02	
28	गोविन्दसीग बल्द कमलसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	44/2	1.61	1.61	
29	राजेश बल्द रमेश पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	46/1 मे से	1.77	3.24	
30	राकेश बल्द रमेश पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	46/2 मे से	1.77		
31	अम्बिकावाई जौजे देवीसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	45/1	0.30	0.30	
32	कमलावाई जौजे लखनसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	45/2	0.97	0.97	
33	देवेन्द्र बल्द कल्यानसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	45/3	0.63	0.63	
34	लाखनसीग देवीसीग पिता मिहरवानसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	45/4	0.65	0.65	
35	अम्बिकावाई जौजे देवीसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	25/1	0.69	0.69	
36	राजरानी जौजे मिहरवानसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	25/2	0.05	0.05	
37	कल्याणसीग बल्द मेहरबानसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	25/3	0.85	0.85	
38	लाखनसीग देवीसीग पिता मिहरवानसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	25/4	0.60	0.60	
39	देवीसीग पिता मिहरवानसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	26	1.13	1.13	
40	लाखनसीग बल्द मेहरबानसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	27/1	1.08	1.08	

41	रामविनोद बल्द परसराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	27/5	0.85	0.85	
42	शिवराजसींग बल्द रघुनाथसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	28/1	1.68	1.68	
43	शिकाबाई जोजे झामसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	28/2	1.00	1.00	
44	हनुमतसींग बल्द औंकारसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	29/1 मे से	3.20	6.73	
45	रघुराजसींग पिता चन्द्रभानसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	29/2 मे से	1.41		
46	नन्हूसींग बल्द गम्मतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	29/3 मे से	1.15		
47	जिनेन्द्रकुमार पिता कमलचंद पता सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	29/4 मे से	1.21		
48	शिवराजसींग बल्द रघुनाथसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	30	0.49	0.31	
49	रमेश चंद बल्द तारा चंद पता सा. कुसमी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	33 में से	4.01	0.18	
50	सुगरलाल बल्द मोहन, सन्तो, सुमत्रा, रामसखी पुत्री मोहन, कमलू, दिनेश पिस.नारायण, शीला, शारदा पुत्री नारायण, जनकरानी वैवा नारायण, सरमन, रामकेश, मुकेश पिस. नन्हेवीर, सरोजरानी वैवा नन्हेवीर पता सा.मुहली भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	37/1	1.36	1.36	
51	सरोजरानी वैवा नन्हेवीर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	37/2	0.22	0.22	
52	महेश दीनानाथ पिता लालचंद हरिबाई गोमती पुत्री लालचंद रूपरानी वैवा रामकिशन अरविन्द अमित पिता रामकिशन सुनीता आरती सीता अनीता पुत्री रामकिशन पता सा.अमोदा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	38	1.41	1.41	
53	धन्नू बल्द चित्तरसींग पता सा.अमोदा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	34 मे से	1.20	0.84	
54	करनसींग बल्द चित्तरसींग पता सा. अमोदा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	35 मे से	2.00	1.81	

56	राजकुमार पिता रामा जाति लोधी पता सा.आमोदा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	36/1 मे से	0.95	1.81	
56	छत्तारसीग पिता रामा जाति लोधी पता सा.आमोदा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	36/2 मे से	0.95		
57	प्रभाबाई पुत्री रामा जाति लोधी पता सा.आमोदा 1/2 भाग भूमि स्वामी सदारानी वेवा रामा जाति लोधी पता सा.आमोदा 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	36/3 मे से	0.10		
58	राजकुमार भूपनारायण मनोजकुमार हाकम पिता नत्थू क्रांती ऊषा पुत्री नत्थू पता सा.आमोदा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	31 मे से	0.47	0.10	
59	अर्जुनसिंह बहादुरसिंह पिता नन्हूसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	22/1 मे से	2.31	4.55	
60	इन्दसीग बल्द हल्कूसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	22/2 मे से	1.21		
61	कीरतसीग बल्द हल्कूसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	22/3 मे से	1.41		
62	प्रकाशरानी वैवा चन्द्रभान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	22/4 मे से	0.56		
63	अर्जुनसिंह पिता भगतसिंह राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	22/5 मे से	0.20		
64	पुरुषोत्तम बल्द मेहरबानसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	21/1मे से	1.70	0.50	
65	रामविनोद बल्दपरसराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	21/2 मे से	0.97		
66	देवेन्द्र बल्द कल्यानसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	21/3 मे से	0.65		
67	राजेन्द्रसीग बल्द शिवराजसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	11/1 मे से	1.86	0.74	
68	झामसीग बल्द शिवराजसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	11/2 मे से	1.86		
69	सुहागरानी जोजे शिवराजसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	11/3 मे से	2.02		
70	सुधारानी जोजे राजेन्द्रसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	11/4 मे से	0.78		

71	इन्द्राबाई पुत्री शिवराज-सींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	11/5 मे से	0.95		
72	नन्हेवीर बल्द मकुन्दी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	10/1मे से	1.53	3.63	
73	ग्याबाई पुत्री तोडल पता सा. अमोदा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	10/2मे से	0.77		
74	राममनी पति निरंजन जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	10/3मे से	0.76		
75	खिलान बल्द परवतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	23/1	4.29	4.29	
76	भगवानसींग बल्द खिलानसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	23/2	2.00	2.00	
77	संतोष कुमार बल्द खिलानसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	23/3	2.00	2.00	
78	खिलान बल्द परवतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	49	0.31	0.31	
79	लखनसींग, रामसींग पिता जगन्नाथसींग, लीलाबाई सीताबाई, बिल्लोबाई पुत्री जगन्नाथसींग, त्रिवेणीबाई भूमि स्वामी बेबा जगन्नाथसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	51/1	2.02	2.02	
80	त्रिवेणी जोजे जगन्नाथसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	51/2	0.12	0.12	
81	सुहागरानी जोजे प्रेमचंद पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	51/3	1.21	1.21	
82	अंगूरीवाई जोजे दीपचंद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	51/4	1.61	1.61	
83	संदीपकुमार बल्द प्रेमचंद पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	51/5	0.40	0.40	
84	हरिसिंह पिता भोलानाथ राजपूत पता निवासी झिरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	51/6	1.20	1.20	
85	नाथूराम बल्द खूबचन्द पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	52	1.62	1.62	

86	दीपचन्द बल्द कपूरचन्द्र पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	53/1	1.42	1.42	
87	दीपचन्द बल्द कपूरचन्द्र पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	53/2	1.41	1.41	
88	मजूसा जौजे संदीप पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	54	1.62	1.62	
89	अशोककुमार, राकेशकुमार, सुनीलकुमार, पवनकुमार पिता हीरालाल, सुमतरानी बेबाहीरालाल, मायाबाई, सुनीताबाई भूमि स्वामी सरोजबाई पिता हीरालाल पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	55	1.18	1.18	
90	रमेशसींग बल्द गन्धर्वसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59	3.15	3.15	
91	अजितकुमार पिता गुलाबचंद पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	94/1	0.30	0.30	
92	अजितकुमार पिता गुलाबचंद पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	94/2	0.67	0.67	
93	अभिषेक पिता केवलचंद पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	95/1	1.59	1.59	
94	संदीप पिता प्रेमचंद पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	95/2	1.60	1.60	
95	गोविन्दसींग बल्द कमलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	60/1	0.41	0.41	
96	नन्हीबाई बेबा कमलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	60/2	2.88	2.88	
97	सोबरनसींग बल्द गन्धर्वसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	61/1	1.81	1.81	
98	अंकित ना.वा. बल्द वलि राजेश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	61/2	1.40	1.40	
99	भागचन्द्र बल्द खूबचन्द्र पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	56/1 मे से	1.96	3.83	
100	वंशीधर बल्द खूबचन्द्र पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	56/2 मे से	1.96		

101	बद्रीप्रसाद बल्द खूबचन्द पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	56/3 मे से	1.96		
102	नाथूराम बल्द खूबचन्द पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	56/4 मे से	0.35		
103	अशोककुमार, राकेशकुमार, सुनीलकुमार, पवनकुमार पिता हीरालाल, सुमतरानी बेबा हीरालाल, मायाबाई, सुनीताबाई भूमि स्वामी सरोजबाई पिता हीरालाल पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	57 मे से	3.18	0.60	
104	हनुमत बल्द भगवानदास पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	58/1 मे से	0.61	0.78	
105	रामचंद पिता भगवानदास पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	58/2 मे से	1.01		
106	हनुमत बल्द भगवानदास पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	58/3 मे से	1.01		
107	रामचंद पिता भगवानदास पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	58/4 मे से	0.60		
108	दुलीचन्द्र बल्द जगन्नाथ पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	62/1मे से	1.16	0.24	
109	संतोषकुमार बल्द दुलीचन्द पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	62/2मे से	1.20		
110	गोविन्दप्रसाद बल्द दुलीचंद पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	62/3मे से	1.20		
111	गोपाल बल्द दुलीचन्द पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	62/4मे से	1.20		
112	आयुश पिता विनोद कुमार प्राची पुत्री विनोद कुमार पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	62/5मे से	1.42		
113	वसंतकुमार बल्द राधेश्याम पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	62/6मे से	1.42		
114	बंसत पिता राधेश्याम रूकमणि देवा राधेश्याम आयुश पिता विनोदकुमार प्राची पुत्री विनोदकुमार पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	62/7मे से	1.93		

115	अजितकुमार पिता गुलाबचंद पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	64मे से	0.80	0.24	
116	संध्या जोजे संतोषकुमार पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	65/1 मे से	2.00	2.76	
117	मुन्नीबाई जोजे वंसतकुमार पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	65/2 मे से	2.00		
118	सरलाबाई जोजे मुन्ना पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	65/3 मे से	2.00		
119	मुन्नीबाई सुनीताबाई पुत्री गुलाबचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	65/4 मे से	0.34		
120	जगन्नाथ पिता रामप्रसाद पता सा.सहजपुर	भूमिस्वामी	5/1 मे से	0.40	1.69	
121	संध्या पति सोहन पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	5/2 मे से	0.04		
122	रामचंद पिता भगवानदास पता सा.सहजपुर	भूमिस्वामी	5/3 मे से	0.34		
123	राजाराम पिता बाबूलाल पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	5/4 मे से	0.97		
124	गोरीशंकर पिता रामप्रसाद पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	5/5 मे से	0.40		
125	राधेश्याम ऊर्फ प्राग पति रामप्रसाद पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	5/6 मे से	0.29		
126	खिलान बल्द परवतसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	8	1.41	1.41	
127	सोहन बल्द नवलसींग पता सा.सहजपुर	भूमिस्वामी	6/1 मे से	0.97	0.19	
128	राजाराम पिता बाबूलाल पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	6/2 मे से	1.43	0.76	
129	ओकार चन्दभान नन्हू पिता गम्मत रल्लीबाई, हल्लीबाई गोमतीबाई पुत्री गम्मत दशरथ बल्द लखन सिवता माया पुत्री लखन प्रगरानी जोजे लखन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	12/1 मे से	0.71	0.04	
130	बृजेश राजेश पिता जीवनसींग विनीता पुत्री जीवनसींग जमनाबाई वेवा जीवनसींग पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	12/2 मे से	2.33		
131	जगन्नाथ पिता रामप्रसाद पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	7/1 मे से	0.90	1.65	
132	संध्या पति सोहन पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	7/2 मे से	1.01		

133	गोरीशंकर पिता रामप्रसाद पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	7/3 मे से	0.78		
134	राधेश्याम ऊर्फ प्राग पतिता रामप्रसाद पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	7/4 मे से	1.31		
135	राजरानी जौजे धनीराम पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	2/1 मे से	1.20	0.02	
136	मुन्ना उर्फ भगवानदास पिता गुलजारी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	2/2 मे से	1.54		
137	राजेश पिता जगदीश जाति पाण्डे पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4/1 मे से	0.89	0.41	
138	भगवानदास, रामचरण पिता गुलझारी तारावाई, शेववतीवाई पुत्री गुलझारी पता सा. सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4/2 मे से	0.88		
139	कपिल पिता गोविंद प्रसाद ब्यास पता सा केसली भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4/3 मे से	0.44		
140	राजेश पिता जगदीश जाति पाण्डे पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4/4 मे से	0.44		
	योग:-		कुल किता -140	187.35	116.54	

दांयी तट नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि-

141	शीलरानी वैवा फूलचंदप्रसाद पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	77 मे से	0.51	0.06	
142	सुरेश पिता दौलतसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	75 मे से	1.27	0.04	
143	हुकमचंद पिता गुलाबचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	78 मे से	0.07	0.01	
144	हुकमचंद पिता गुलाबचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	85 मे से	1.24	0.17	
145	कीरतसींग, इन्दसींग, कमलेश पिता हल्कू गुडडी बाई, सुशीला बाई, ऊमा बाई, सवीताबाई,अल्लीबाई पुत्री हल्कू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	86/1 मे से	1.48	0.26	
146	कमलेश बल्द हल्कूसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	86/2 मे से	0.95		
147	पूरनसींग बल्द प्रेमसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	83/1 मे से	1.16	0.44	
148	सरोजबाई जोजे पूरनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	83/2 मे से	2.00		
149	विनयसींग बल्द.पूरनसींग पता सा. मुहली भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	83/3 मे से	4.32		

150	धरमेंद्रसींग पिता पुरनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	83/4 मे से	4.21		
151	किरण पति द्वारकाप्रसाद पता सा. कुकरयाउ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	83/5 मे से	1.20		
152	श्यामवाई जौजे भगतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	89/184	0.46	0.04	
153	श्यामवाई जौजे भगतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	163	7.66	0.25	
	योग:-		कुल किता -13	26.53	1.27	
	महा योग:-		कुल किता -153	213.88	117.81	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 42-अ-82-19-20-भू-अर्जन-596

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को निवारीकला जलाशय योजना के अन्तर्गत स्पिल चैनल (5.30 हे०) एवं नहर निर्माण (3.96 हे०) कुल रकवा 9.26 हे० सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। परियोजना के निर्माण से लगभग 950 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारीकला जलाशय
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 तहसील : केसली
 ग्राम : निवारीखुर्द
 4. पट.ह.नं.- : 53
 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 9.26 हे.
 :: अनुसूची-1 ::

स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि

सं०क०	भूमि स्वामी का विवरण	स्वामित्व का अधिकार	खसरा नं०	कुल रकवा (हे० में)	अर्जित रकवा (हे०में०)	रिमार्क
1	अर्जुनसींग वल्द भगतसींग पता सा. निवारीकला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/1	1.58	0.84	स्पिल
2	अभिषेक ना.वा.बल्द अर्जुनसींग बली मा सध्या जौजे अर्जुनसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/2	1.21		स्पिल
3	अर्जुनसींग वल्द भगतसींग पता सा. निवारीकला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3	0.41	0.01	स्पिल
4	अभिषेक ना.वा.बल्द अर्जुनसींग बली मा सध्या जौजे अर्जुनसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/1	0.81	3.84	स्पिल
5	संजयसिंह बल्द तेजबलसिंह पता सा.नि. कला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/2	1.06		स्पिल
6	जगदीश प्रसाद बल्द वावूलाल गुप्ता पता सा.नरसिंहबाई गाडरवारा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/3	3.00		स्पिल

7	श्रीमति सुनीता पति सुरेन्द्रसिंहकौशिक पता सा.फरीदावादहिरयाणा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/4	2.10		स्पिल
8	शंकरसिंह सत्यपालसिंह पिता मोहनसींग सुशीला वेवा मोहनसींग पता सा.निवारी. कला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/5	1.20		स्पिल
9	जगदीश प्रसाद बल्द वावूलाल गुप्ता पता सा.नरसिंहबाई गाडरवारा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/6	0.32		स्पिल
10	जगदीश प्रसाद बल्द वावूलाल गुप्ता पता सा.नरसिंहबाई गाडरवारा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7	0.12	0.12	स्पिल
11	श्रीमति सुनीता पति सुरेन्द्रसिंह कौशिक पता सा.फरीदावाद हरियाणा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8/1	0.60	0.20	स्पिल
12	सुरेन्द्रसिंह वावूसिंह बन्टूसिंह पिता गुलाबसिंह मायावाई वैवा गुलाबसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8/2	0.11		स्पिल
13	जगदीश प्रसाद बल्द वावूलाल गुप्ता पता सा.नरसिंहबाई गाडरवारा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9/1	0.12	0.14	नहर
14	श्रीमति सुनीता पति सुरेन्द्रसिंह कौशिक पता सा.फरीदावादहिरयाणा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9/2	0.80		नहर
15	सुरेन्द्रसिंह वावूसिंह बन्टूसिंह पिता गुलाबसिंह मायावाई वैवा गुलाबसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9/3	0.10		नहर
16	सुरेन्द्र सिंह बल्द दीवानचंद कौशिक पता सा.हरियाना	भूमि स्वामी	9/4	0.78		नहर
18	जगदीश प्रसाद बल्द वावूलाल गुप्ता पता सा.नरसिंहबाई गाडरवारा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11	0.17	0.17	स्पिल
19	सुरेन्द्रसिंह वावूसिंह बन्टूसिंह पिता गुलाबसिंह मायावाई वैवा गुलाबसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12	0.10	0.10	स्पिल
20	नन्हीवाई फूलावाई पुत्री विशालसींग पता सा. निवारीकला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14/1	2.10	0.20	नहर
21	सावित्रीवाई पति जितेन्द्र पता सा.देवरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14/4	4.04	0.24	नहर
22	शंकरसींग वल्द मोहनसींग पता सा.निवारी कला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14/5	1.20	0.06	नहर
23	छोटीबाई जोजे भगतसींग पता सा.निवारी कला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14/3/ 1/1	0.20	0.04	नहर
24	अर्जुनसिंह पिता भगतसींग पता सा.सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14/3/ 1/2	1.84		नहर
25	बृजेशसींग पिता भगतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14/3/ 2	2.00		नहर

26	श्रीमति मीरावाई जौजे वीरनसींग पता सा. निवारी खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35	1.26	0.18	नहर
27	बृजेशसींग पिता भगतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	36	0.92	0.13	नहर
28	फूलरानीबेबाबबू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39/3	0.67	0.10	नहर
29	तेजबलसींग पिता इमरतसींग पता सा.मुहली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/1	0.17	0.41	नहर
30	तेजबलसींग पिता इमरतसींग पता सा.मुहली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/2	1.42		नहर
31	रूपरानी जोजे छोटेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/3	1.25		नहर
32	तेजबलसींग पिता इमरतसींग पता सा.मुहली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/1	0.34	0.31	नहर
33	तेजबलसींग पिता इमरतसींग पता सा.मुहली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/2	0.93		नहर
34	रघुवीरसींगवल्दगोरेलाल पता सा.मुहली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/3	3.46		नहर
35	प्रकाशरानी पुत्री महरवानसींग पता सा. मुहली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/4	1.73		नहर
36	रूपरानी जोजे छोटेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/5	0.35		नहर
37	अरुण कुमार पिता राजेन्द्र कुमार पता सा. लक्ष्मीनारायण वार्ड करेली जि० नरसिंहपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/6	0.80		नहर
38	बारेलाल वल्द मलकू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31	0.71	0.08	नहर
39	श्रीमति सुनीता पति सुरेन्द्रसिंह कौशिक पता सा.फरीदावाद हरियाणा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	62	0.96	0.02	स्पिल
40	अरुण कुमार पिता राजेन्द्र कुमार पता सा. लक्ष्मीनारायण वार्ड करेली जि.नरसिंहपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	110/1	0.77	0.01	नहर
41	बल्देव बल्द हरिसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	110/2	0.19		नहर
42	अरुण कुमार पिता राजेन्द्र कुमार पता सा. लक्ष्मीनारायण वार्ड करेली जि.नरसिंहपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	110/3	0.10		नहर
43	रामलाल वल्द मोहनलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114	0.97	0.09	नहर

44	चन्दारानी जोजे भगवानदास संध्यारानी जोजे महादेव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	116	1.11	0.22	नहर
45	कन्छेदी बल्द सुल्तानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	117	1.08	0.10	नहर
46	प्रकाश वल्द विशाल मथराबेबा विशाल पता सा.डूहली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	123/1	1.75	0.33	नहर
47	उत्तराबाई बेबा गुलाबसींग सूरजबाई, चन्दाबाई, कलाबाई, क्रान्तिबाई, ताराबाई, पूनाबाईपुत्री गुलाब पता सा. डूहली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	123/2	1.75		नहर
48	बृजेन्द्र पिता बारेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	124/1	0.32	0.01	नहर
49	देवेन्द्र पिता बारेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	124/2	0.32		नहर
50	भागीरथ बल्द देवी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	132/1	1.35	0.06	नहर
51	रामरानीजोजेग्याप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	133/1	1.48	0.16	नहर
52	प्रेमबाई जोजे विरसंग पता सा. देह	भूमि स्वामी	132/4	1.00	0.11	नहर
53	प्रकाशवल्द विशाल मथरा बेबा विशाल पता सा.डूहली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	140/1	0.87	0.20	नहर
54	उत्तराबाई बेबा गुलाब सींग सूरजबाई चन्दाबाई कलाबाई क्रान्तिबाई ताराबाई पूनाबाई पुत्री गुलाब पता सा. डूहली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	140/2	0.87		नहर
55	छलसींग वल्द फागू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	144	1.05	0.12	नहर
56	वर्षा पति कन्छेदी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	145	1.43	0.14	नहर
57	प्रकाश वल्द विशाल मथरा बेबा विशाल पता सा.डूहली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	147/1	0.65	0.09	नहर
58	उत्तराबाई बेबा गुलाब सींग सूरजबाई चन्दाबाई कलाबाई क्रान्तिबाई ताराबाई पूनाबाई पुत्री गुलाब पता सा. डूहली	भूमि स्वामी	147/2	0.65		नहर
59	अर्जून बल्द कडोरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	146	0.41	0.07	नहर
60	क्लीबाई जोजे देवीसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	175	0.50	0.14	नहर
61	स्वाती पुत्री कल्यानसिंह, प्रगति पुत्री सोबरनसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	176	0.95	0.22	नहर
योग:-			कुल किता	60.51	9.26	
			-61			

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रीति मैथिल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय-सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-सांवेर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश

क्र. 5447-भू-अर्जन-2019-20

सांवेर, दिनांक 16 जनवरी 2020

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 2376/मू-अर्जन/2019, सांवेर, दिनांक 28/06/2019 द्वारा, राज्य सरकार ने उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना के अंतर्गत आर०डी० 33020 मीटर से क्षिप्रा बैराज में पानी पहुंचाने के लिये भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.07.2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बुढी बरलाई, प.ह.नं.- 52	229/1	0.035
			229/2	0.005
			234	0.044
इन्दौर	सांवेर	बुढी बरलाई, प.ह.नं.- 52	235/1	0.011
			236/1	0.014
			235/2	0.020
			236/2	0.014
			275/1	0.003
			275/2	0.021
			276/1/3	0.015
			277	0.023
कुल योग			11	0.205

रवीश श्रीवास्तव, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन), जिला रतलाम

क्र. 223-भू-अर्जन-20-प्रकरण क्रमांक 04-अ-82-2019-20

रतलाम, दिनांक 20 जनवरी 2020

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "सांसर तालाब (नहर) योजना" तहसील सैलाना, जिला रतलाम के निर्माण हेतु ग्राम पिपलघाटी व दामारुण्डी के कुल 07 खातेदारों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	दुबला, थावरा पिता नाथा व मांगू, कैलाश, गंगा, जमना, काली, संगीता, धापू, पिता रतन व नंदीबाई बेवा रतन व पु समरथ बा मनोज ना.बा. कमलेश बा पुत्रियां पून्जा ना.बा. पिता नानूराम व पारुबाई बेवा नानुराम जाति-भील निवासी ग्राम-दामारुण्डी तह. सैलाना।	04	0.16	—	0.16	—
		13	0.10	—	0.10	
2	रावजी पिता कचरा जाति भील निवासी ग्राम दामारुण्डी	72	0.07	—	0.07	—
3	कालू पिता सुखला जाति भील निवासी ग्राम दामारुण्डी	71	0.13	—	0.13	—
4	मडिया, शान्तु, मुन्नालाल पिता हिरा व जीतुडी बेवा हीरा जाति भील निवासी ग्राम दामारुण्डी	88/3	0.15	—	0.15	—
5	अमरा पिता रंगजी जाति भील निवासी ग्राम दामारुण्डी	88/4	0.15	—	0.15	—
6	नारजी पिता मनजी जाति भील निवासी ग्राम- सांसर	632/40/1	0.20	—	0.20	—
7	भाणजी पिता मनजी जाति भील निवासी ग्राम सांसर	632/40/2	0.20	—	0.20	—

रुचिका चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला देवास (म. प्र.)

क्र. 216-भू-अर्जन-20

देवास, दिनांक 21/22 जनवरी 2020

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 क्र. 30 सन् 2013

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क.1 में इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत ग्राम अमलावती तहसील व जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूचि-1

ग्राम- अमलावती

तहसील- देवास

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना	0.170	0	0.170

अनुसूचि-2

इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत ग्राम अमलावती की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- अमलावती

तहसील- देवास

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	निहालसिंह पिता बद्रीलाल, कौशल्याबाई विधवा बद्रीलाल जाति भील नि.ग्राम	80	0.130	0	0.130	0.030	0	0.030
2.	गोपाल, ओमप्रकाश, भगवान, मायारानी,रेखा पिता भागीरथ, तेजूबाई विधवा रमेश, संतोष, उदयसिंह पिता रमेश, लक्ष्मीबाई पुत्री रमेश, रामकन्या विधवा जगदीश, जितेन्द्र, दीपक पिता जगदीश, नीलम पुत्री जगदीश जाति बलाई नि. ग्राम	82	0.750	0	0.750	0.010	0	0.010
3.	बाबूलाल, रणजीत, बहादुर पिता गिरवर, गीताबाई, अहिल्याबाई, सोरमबाई पुत्री गिरवर, निहालसिंह, सुमित्राबाई पिता बद्रीलाल जाति भील पता, मंजूबाई, संतोषबाई, जीवन, पप्पू पिता प्रहलाद भूमिस्वामी, मुकेश, ममता पिता बनेसिंह, कौशल्याबाई विधवा बद्रीलाल, सोदानसिंह, नरभेसिंह, तोफानसिंह, कमलसिंह पिता कनीराम, सजनबाई विधवा कनीराम जाति भील नि. ग्राम	83	0.200	0	0.200	0.040	0	0.040
4.	बहादुरसिंह पिता गिरवर जाति भील,	84	0.190	0	0.190	0.020	0	0.020
5.	रंजीत पिता गिरवर जाति भील	85	0.190	0	0.190	0.020	0	0.020
6.	कन्हैयालाल पिता रामगोपाल जाति माली नि. 3, लक्ष्मणनगर देवास	86	0.410	0	0.410	0.050	0	0.050
	योग		1.870	0	1.870	0.170	0	0.170

क्र. 223-भू-अर्जन-20

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 क्र. 30 सन् 2013

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क.1 में इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत ग्राम मुकुन्दखेड़ी तहसील व जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

ग्राम- मुकुन्दखेड़ी
तहसील- देवास

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना	0.490	0	0.490

अनुसूची-2

इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत ग्राम मुकुन्दखेड़ी की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- मुकुन्दखेड़ी
तहसील- देवास

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	प्रेमसिंह, गुलाबसिंह, अर्जुनसिंह, शांताबाई, शारदाबाई पिता अम्बाराम कलौता	195	1.450	0	1.450	0.150	0	0.150
2.	वासुदेव, राधेश्याम, तुलसीराम, सीताराम, कौशल्याबाई पिता कल्ला, सरजूबाई विधवा कल्ला, गेणाबाई विधवा रामचन्द्र, गम्बूलाल, देवकरण, रमेश, सत्यनारायण, नानूराम, फतेसिंह पिता कल्ला, सोदराबाई, फुलाबाई पिता कल्ला, अचरतबाई विधवा रामप्रसाद, संतोष, ओमप्रकाश पिता रामप्रसाद कलौता	199	0.780	0	0.780	0.080	0	0.080
		200	0.490	0	0.490	0.050	0	0.050
		201	0.580	0	0.580	0.040	0	0.040
3.	धन्नालाल, मनोहरसिंह पिता देवीसिंह, कैलाश, तकतसिंह पिता देवीसिंह, कल्यासिंह, राकेशसिंह पिता बद्रीलाल जाति कलौता	218/1	0.540	0	0.540	0.060	0	0.060
4.	राकेशसिंह पिता बद्रीलाल कलौता	218/2	0.100	0	0.100	0.010	0	0.010
5.	प्रेमबाई पति छोटेलाल जाति कलौता	217/1	0.620	0	0.620	0.040	0	0.040
		217/2	0.510	0	0.510	0.040	0	0.040
6.	सावित्राबाई पति बहादुरसिंह	236/1	0.440	0	0.440	0.020	0	0.020
	कुल योग	09	5.510	0	5.510	0.490	0	0.490

क्र. 230-भू-अर्जन-20

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 क्र. 30 सन् 2013

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क.1 में इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत ग्राम कालूखेड़ी तहसील व जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

ग्राम - कालूखेड़ी
तहसील - देवास

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना	0.221	0	0.221

अनुसूची-2

इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत ग्राम कालूखेड़ी की प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम- कालूखेड़ी
तहसील- देवास

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	पीरा पिता भवान जाति कलौता	40/5	0.376	0	0.376	0.038	0	0.038
2.	नरेन्द्र पिता हरिशंकर व राजेश पिता हरिशंकर, रानूबाई विधवा हरिशंकर	40/4	0.376	0	0.376	0.051	0	0.051
3.	शालिगराम पिता शंकर कलौता	40/6	0.506	0	0.506	0.060	0	0.060
4.	दोलतसिंह, हरिराम पिता रामरतन कलौता	33/1/2	1.012	0	1.012	0.063	0	0.063
5.	काशीराम पिता हट्टेसिंह मकवाना	33/1/1 /min-2	1.748	0	1.748	0.009	0	0.009
			4.018	0	4.018	0.0221	0	0.221

क्र. 237-भू-अर्जन-20

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 क्र. 30 सन् 2013

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क.1 में इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत ग्राम गदईशा पिपल्या तहसील व जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

ग्राम - गदईशा पिपल्या
तहसील - देवास

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना	0.860	0	0.860

अनुसूची-2

इन्दौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत ग्राम गदईशापिपल्या की प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम- गदईशा पिपल्या
तहसील- देवास

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	पूनमचंद पिता नंदा जाति बलाई	148/2	0.030	0	0.030	0.030		0.030
		180	0.230	0	0.230	0.130		0.130
2.	रामप्रसाद नवल हजारीलाल पिता किशन, छोटीबाई बेवा किशन जाति बलाई	149	0.310	0	0.310	0.040		0.040
		150	0.290	0	0.290	0.030		0.030
		151	0.310	0	0.310	0.030		0.030
3.	नगजीराम, करणसिंह पिता हिन्दू, रेशमबाई बेवा हिन्दू, लालू पिता बापू, लीलाबाई दत्तक पुत्र गंगाराम, चंदाबाई बेवा गंगाराम, जाति बलाई	179	0.790	0	0.790	0.160		0.160
4.	अफसर अली कोठारी पिता रमजान अली कोठारी जाति मुसलमान नि.दशहरा मैदान सुकल्या क्षिप्रा, अययुब अली कोठारी पिता रमजान अली कोठारी जाति मुसलमान निवासी 23, क्षिप्रा, न्यू बायपास एबी रोड़, दशहरा मैदान, देवास	183	0.540	0	0.540	0.040		0.040

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
5.	मोहम्मद असलम शेख, मोहम्मद अकरम शेख पिता मोहम्मद हुसैन शेख जाति नायता	184	0.320	0	0.320	0.080		0.080
		186	0.710	0	0.710	0.130		0.130
6.	शंकर पिता नंदा जाति बलाई	198	0.050	0	0.050	0.040		0.040
7.	दुलेसिंह पिता अम्बाराम जाति गारी	200	0.250	0	0.250	0.020		0.020
8.	बहादुरसिंह पिता अम्बाराम जाति गारी	201	0.300	0	0.300	0.040		0.040
9.	भागवंताबाई पति भंवरसिंह जाति भिलाला	202	0.230	0	0.230	0.080		0.080
10	राधाकिशन पिता बोंदाजी जाति गारी	203	0.920	0	0.920	0.010		0.010
	योग		5.560	0	5.560	0.860		0.860

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 2 जनवरी 2020

क्र. 29-भू-अर्जन-2019-भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम गरडावद
(घ) अर्जित रकबा—0.400 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1045/2	0.060	1036	0.190	852	0.110	856	0.040
						योग . .	<u>0.400</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगांव-खेरोद मार्ग के पुर्ननिर्माण/उन्नयन कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 8 जनवरी 2020

क्र. 20357-भू-अर्जन-2019-नस्ती क्रमांक-116-2018-एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित पहुंच मार्ग की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा 4-सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक

समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	टप्पा-मूंदी तहसील पुनासा	बीड	0.136 हे.	कार्यपालन अभियंता (सिविल) साधारण संभाग-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया.	श्री सिंगाजी थर्मल पावर दोंगालिया परियोजना के लिये सुरगांव बंजारी से बीड तक रेलमार्ग के निर्माण के अंतर्गत ग्राम बीड में निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन.

अनुसूची (2)

श्री सिंगाजी थर्मल पावर दोंगालिया परियोजना के लिये सुरगांव बजारी से बीड तक रेलमार्ग के निर्माण के अंतर्गत ग्राम बीड की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)	(2)
162/1	0.136
योग . .	<u>0.136</u>

नोट.—1. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) साधारण संभाग-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

तन्वी सुंदरियाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 21 जनवरी 2020

प्र. क्र. 01-अ-82-18-19-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मकोडा-छीमक-बागवई-करियावटी-सांखनी-धूमेश्वर-बडगोर मार्ग का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण

धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
(1)	(2)	(3)	सर्वे नंबरान	रकबा	(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	बागवई	किता-16 सर्वे नम्बरान संलग्न सूची अनुसार.	कुल रकबा 1.191 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक संभाग क्र. 01 जिला ग्वालियर.	मकोडा-छीमक-बागवई-करियावटी-सांखनी-धूमेश्वर-बडगोर मार्ग के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन बावत्.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कार्य का नाम.—पी.डब्ल्यू.डी. राजमार्ग के तहत ग्राम बागवई की सूची ग्राम बागवई तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश.

पटवारी हल्का नं.-8

क्र.	सर्वे नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित रकबा	वर्तमान में मार्ग निर्माण में अर्जित रकबा	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	11	0.596	-	0.125	
2	12	1.004	-	0.157	
3	17	0.376	-	0.105	
4	247	0.449	-	0.073	
	269	0.063	-	0.063	
5	248	0.115	-	0.042	
6	249	0.115	-	0.021	
7	250	0.690	-	0.031	
8	269	0.125	-	0.052	
9	265	0.084	-	0.010	
10	266	0.575	-	0.073	
11	268	0.481	-	0.021	
12	270	0.481	-	0.178	
13	271	0.042	-	0.010	
14	272	0.209	-	0.031	
15	328	0.888	-	0.188	
16	330	0.063	-	0.011	
			योग . .	<u>1.191</u>	

प्र. क्र. 02-अ-82-18-19-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मकोडा-छीमक-बागवई-करियावटी-सांखनी-धूमेश्वर-बडगोर मार्ग का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
			सर्वे नंबरान	रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	छिरेंटा	किता-22 सर्वे नम्बरान संलग्न सूची अनुसार.	कुल रकबा 0.205 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 01 जिला ग्वालियर.	मकोडा-छीमक-बागवई-करियावटी-सांखनी-धूमेश्वर-बडगोर मार्ग के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन बावत्.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कार्य का नाम:—पी.डब्ल्यू.डी. राजमार्ग के तहत ग्राम छिरेंटा की सूची ग्राम छिरेंटा तहसील भितरवार,

जिला ग्वालियर म. प्र.

पटवारी हल्का नं.-5

क्र.	सर्वे नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित रकबा	वर्तमान में मार्ग निर्माण में अर्जित रकबा	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	548, 549	0.012, 0.002	-	0.012, 0.002	
2	544, 547	0.334	-	0.005	
3	542	0.219	-	0.002	
4	541/2	0.188	-	0.002	
5	540/1,308	0.178,105	-	0.015,0.003	
6	540/2	0.188	-	0.004	
7	531 मिन 2	0.094	-	0.006	
8	531 मिन 1	0.209	-	0.005	
9	297 मिन 1	0.199	-	0.004	
10	298	0.303	-	0.006	
11	299	0.136	-	0.003	
12	304	0.115	-	0.003	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	309 मिन, 305 मिन	0.006	-	0.004	
14	31029, 340/1, 340/4	0.010, 0.084	-	0.003, 0.045	
15	340/3, 310/1	0.084, 0.52	-	0.045, 0.503	
16	312	0.167	-	0.005	
17	313 मिन 1	0.063	-	0.003	
18	324 मिन 1	0.136	-	0.005	
19	324 मिन 2	0.136	-	0.005	
20	323	0.146	-	0.006	
21	322	0.013	-	0.002	
22	321/2	0.037	-	0.037	
				योग . .	0.205

प्र. क्र. 03-अ-82-18-19-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मकोडा-छीमक-बागवई-करियावटी-सांखनी-धूमेश्वर-बडगौर मार्ग का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबरान	धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
ग्वालियर	भितरवार	देवरा	किता-19 सर्वे नम्बरान संलग्न सूची अनुसार.	कुल रकबा 0.162 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 01 जिला ग्वालियर.	मकोडा-छीमक-बागवई- करियावटी-सांखनी-धूमेश्वर- बडगौर मार्ग के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन बावत.

(2) भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

फार्म एक (3)

ग्राम देवरा तहसील डबरा जिला ग्वालियर पटवारी हल्का नं. 73

मकोडा छीमक बागवई, करियावटी, सांखनी मार्ग एवं बडगौर पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन के तहत आने वाली भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

क्र.	सर्वे क्र.	कुल रकबा	अर्जित किये जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	446	0.22	0.05 हे.
2	463	0.74	0.03 हे.

(1)	(2)	(3)	(4)
3	444	0.18	0.06 हे.
4	465	0.42	0.08 हे.
5	464	0.41	0.08 हे.
6	466	0.56	0.08 हे.
7	435 मिन-1	1.79	0.18 हे.
8	472	0.33	0.18 हे.
9	422 मिन-1	0.24	0.05 हे.
10	407	0.36	0.10 हे.
11	471 मिन-1	0.27	0.02 हे.
12	408 मिन-1	0.18	0.10 हे.
13	212	0.020	0.020 हे.
14	214	0.170	0.100 हे.
15	283	0.360	0.080 हे.
16	275	0.220	0.120 हे.
17	261	0.960	0.260 हे.
18	251	0.740	0.010 हे.
19	252	0.060	0.020 हे.

प्र. क्र. 04-अ-82-18-19-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मकोडा-छीमक-बागवई-करियावटी-सांखनी-धूमेश्वर-बडगोर मार्ग का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
			सर्वे नंबरान	रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	डबरा	करियावटी	किता-09 सर्वे नम्बरान सूची अनुसार.	कुल रकबा 0.562 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 01 जिला ग्वालियर.	मकोडा-छीमक-बागवई-करियावटी-सांखनी-धूमेश्वर-बडगोर मार्ग के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन बावत.

(2) भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग चौधरी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

फार्म एक (3)

ग्राम करियावटी तहसील डबरा जिला ग्वालियर पटवारी हल्का नं.

मकोडा छीमक बागबई, करियावटी, सांखनी मार्ग एवं बडगोर पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन के तहत आने वाली भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स. क्र.	सर्वे नं.	कुल रकबा	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा हैक्टर
1	672 मिन	0.762	0.188
2	673 मिन	0.774	0.031
3	675 मिन	0.21	0.010 शा. रास्ता
4	795	0.899	0.105
5	799 मिन 2	0.209	0.062
6	799 मिन	0.209	0.042
7	799 मिन 2	0.209	0.042
8	808	0.063	0.030
	806	0.063	0.010
9	799 मिन	0.209	0.042
			योग . 0.562

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 21 जनवरी 2020

प्र. क्र. 31-अ-82-18-19-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—डबका
(घ) क्षेत्रफल—1.309 हेक्टेयर.

अनुक्रमांक	सर्वे	रकबा (हे. में.)	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	501/3	0.050	1.309 हेक्टेयर
2	501/1	0.170	हरसी उच्च स्तरीय नहर की
3	496/5	0.209	चक मेहरोली की प्रथम
3	479/2	0.110	माइनर निर्माण हेतु ग्राम
4	455/3	0.060	डबका तहसील व जिला
5	455/1	0.090	ग्वालियर की भूमि का
6	456/4	0.080	अर्जन.
7	457/3	0.060	
8	457/2	0.130	
9	457/1	0.060	
10	450/4	0.210	
11	450/3	0.010	
12	479/1	0.070	

(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है:—हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग चौधरी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 जनवरी 2020

क्र. 626-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चांद
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—खापाबिहारी, प.ह.नं.-31,
ब. नं.-44, रा. नि. मं.-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.108
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
55/1	0.056
58/1, 58/2	0.048
63/3, 64/4, 140/1	0.004
योग.	0.108

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 17 एल माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 627-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चांद
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-गोहरगांव, प.ह.नं.-31, ब. नं.-68, रा. नि. मं.-चांद.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल— कुल रकबा-0.771 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
129/3	0.090
331/1, 334/1,	0.143
334/2, 335/1	
105/15	0.060
335/2, 336/3	0.085
268/2, 286/3, 288/2	0.063
296/1, 296/3	0.060
115/4, 116/5,	0.135
118/5, 119/5	
221/7	0.135
योग.	0.771

क्र. 628-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चांद
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-ढीमरमेटा, प.ह.नं.-30, ब. नं.-114, रा. नि. मं.-चांद.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल— कुल रकबा-0.255 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
367/2-3-4	0.051
353/1	0.052

(1)	(2)
418, 419	0.014
174/1ड, 172/2घ	0.040
422	0.028
413/02, 414/3-4, 415/2,	0.070
424/2, 425/2	

योग. . 0.255

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायीं तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 15 एल माईनर निर्माण तथा सब माईनर के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 629-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चांद

- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-नीलकंठीखुर्द, प.ह.नं.-28, ब. नं.-152, रा. नि. मं.-चांद.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.821 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
57/4, 70, 71	0.049
63/1, 63/6, 68/2	0.101
68/4, 68/5	0.234
63/13, 63/14	0.437
योग.	0.821

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायीं तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2020

क्र. D-520-दो-2-34-2014.—श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 20 से 22 जनवरी 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2020

क्र. D-298-दो-2-67-2016.—श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 26 दिसम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 21 जनवरी 2020

क्र. D-383-दो-2-101-2017.—श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 30 अक्टूबर से 02 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 से 29 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-385-दो-2-113-17.—श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-387-दो-2-10-2018.—कु. भावना साधौ, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2020

क्र. D-597-दो-2-43-2017.—श्री आर. के. नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जावे:—

1. दिनांक 23 दिसम्बर 2019 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के पूर्व अनुक्रम में दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. नागपुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-601-दो-2-57-2015.—श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 31 दिसम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-603-दो-2-53-2014.—श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 3 से 6 फरवरी 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-605-दो-2-72-2018.—श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को दिनांक 30 दिसम्बर 2019 से 04 जनवरी 2020 तक, छह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 05 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-607-दो-2-33-2015.—श्रीमती आशा गोधा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को दिनांक 20 से 25 जनवरी 2020 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 जनवरी 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जनवरी 2020 के

सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशा गोधा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशा गोधा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-609-दो-2-46-2015.—श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है।

1. दिनांक 19 नवम्बर 2019 का एक दिन के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।

2. दिनांक 19 नवम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-634-दो-2-45-2019.—श्री बी. के. द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 29 जनवरी से 1 फरवरी 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.